



भारत का राजपत्र The Gazette of India

साप्ताहिक/WEEKLY

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 50] नई दिल्ली, शनिवार, दिसम्बर 10—दिसम्बर 16, 2005 (अग्रहायण 19, 1927)
No. 50] NEW DELHI, SATURDAY, DECEMBER 10—DECEMBER 16, 2005 (AGRAHAYANA 19, 1927)

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके।
(Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation)

[भाग I—खण्ड 2]

[PART I—SECTION 2]

[(रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) भारत सरकार के मंत्रालयों और उच्चतम न्यायालय द्वारा जारी की गई सरकारी अफसरों की नियुक्तियों, पदोन्नतियों व छुट्टियों आदि से सम्बन्धित अधिसूचनाएं]

[Notifications regarding Appointments, Promotions, Leave etc. of Govt. Officers issued by the Ministries of the Govt. of India (other than the Ministry of Defence) and by the Supreme Court]

उपराष्ट्रपति सचिवालय

नई दिल्ली, दिनांक 26 नवम्बर 2005

सं. 03/04/2005-प्रशासन--राष्ट्रपति जी श्री बहादुर सिंह राठौर को उपराष्ट्रपति जी के निजी सचिव के पद पर रुपए 12000-16500 के वेतनमान में, दिनांक 24 नवम्बर, 2005 (पूर्वाह्न) से, सह-अन्तय-स्तम्भ आधार पर या अगले आदेश तक जो भी पहले हो, सहर्ष नियुक्त करते हैं।

अशोक दीवान, उप सचिव

राज्य सभा सचिवालय

नई दिल्ली, दिनांक 22 नवम्बर 2005

सं. आरएस. 41(i)/2005/60-कार्मिक--राज्य सभा के माननीय सभापति ने निम्नलिखित व्यक्ति के संबंध में सुनिश्चित कैरियर प्रोन्नति (ए.सी.पी.) योजना के अनुसार 21 नवम्बर, 2005 से संसदीय भाषांतर के ग्रेड में वित्तीय उन्नयन संबंधी स्वीकृति प्रदान करते हैं :-

| क्रम संख्या | नाम और पदनाम | वर्तमान वेतनमान | संशोधित वेतनमान |
|-------------|----------------------|-------------------------|-------------------------|
| 1. | श्री के. एस. सोमशेखर | 10,000-325-15,200 रुपये | 12,000-375-16,500 रुपये |

2. वित्तीय उन्नयन की अन्य शर्तें भर्ती और सेवा-शर्तें आदेश दिनांक 5 अक्तूबर, 2001 के अनुसार होंगी।

प्र. रं. गुहाराय, निदेशक

दिनांक 29 नवम्बर 2005

सं. आरएस. 41(i)/2005/61-कार्मिक--राज्य सभा के माननीय सभापति ने निम्नलिखित व्यक्ति के संबंध में सुनिश्चित कैरियर प्रोन्नति (ए.सी.पी.) योजना के अनुसार 29 नवम्बर, 2005 से सहायक सम्पादक के ग्रेड में वित्तीय उन्नयन संबंधी स्वीकृति प्रदान करते हैं :-

| क्रम संख्या | नाम और पदनाम | वर्तमान वेतनमान | संशोधित वेतनमान |
|-------------|---------------------|------------------------|-------------------------|
| 1. | श्री अशोक कुमार फुल | 8,000-275-13,500 रुपये | 10,000-325-15,200 रुपये |

2. वित्तीय उन्नयन की अन्य शर्तें भर्ती और सेवा-शर्तें आदेश दिनांक 5 अक्तूबर, 2001 के अनुसार होंगी।

प्र. रं. गुहाराय, निदेशक

अन्तरिक्ष विभाग

बेंगलूर-560 094, दिनांक 8 नवम्बर 2005

सं. 3/1(1)/2005-I--राष्ट्रपति, अन्तरिक्ष विभाग के विक्रम साराभाई अन्तरिक्ष केन्द्र, तिरुवनन्तपुरम में निम्नलिखित व्यक्तियों को वैज्ञानिक/इंजीनियर-एस.सी. के पद पर अस्थायी रूप में प्रत्येक के सामने दिए गए दिनांकों के पूर्वाह्न से आगामी आदेश तक नियुक्त करते हैं:

| क्रम सं. | नाम | नियुक्ति की तिथि |
|----------|--------------------|------------------|
| | श्री/श्रीमती/कु. | |
| 1. | योगिन. एस. सिरसी | 07.01.2005 |
| 2. | नितिन कुमार | 07.01.2005 |
| 3. | नवदीप भण्डारी | 07.01.2005 |
| 4. | गुप्तश्वर नाथ सिंह | 07.01.2005 |
| 5. | विनु पॉल | 10.01.2005 |
| 6. | ए. षण्मुगवेल | 18.01.2005 |
| 7. | गणेश. पी. | 19.01.2005 |
| 8. | रघुराम. पी. आर | 25.01.2005 |
| 9. | पियूष सिन्हा | 25.01.2005 |

मो. इक्रामुल्ला, अवर सचिव

दिनांक 9 नवम्बर 2005

सं. 3/1(1)/2005-I--राष्ट्रपति, अन्तरिक्ष विभाग के विक्रम साराभाई अन्तरिक्ष केन्द्र, तिरुवनन्तपुरम में निम्नलिखित व्यक्तियों को वैज्ञानिक/इंजीनियर-एस.सी. के पद पर अस्थायी रूप में प्रत्येक के सामने दिए गए दिनांकों के पूर्वाह्न से आगामी आदेश तक नियुक्त करते हैं:

| क्रम सं. | नाम | नियुक्ति की तिथि |
|----------|------------------------|------------------|
| | श्री/श्रीमती/कु. | |
| 1. | सजीव आर | 21.02.2005 |
| 2. | ऋतु सिंह | 04.01.2005 |
| 3. | नयना ठाकुर | 04.01.2005 |
| 4. | वेन्निला एम | 05.01.2005 |
| 5. | सुन्दर वड्डिवेल के | 03.01.2005 |
| 6. | जी. आन्टोनी नीति मणिकम | 10.02.2005 |

मो. इक्रामुल्ला, अवर सचिव

सं. 3/1(2)/2005-I--राष्ट्रपति, अन्तरिक्ष विभाग के विक्रम साराभाई अन्तरिक्ष केन्द्र, तिरुवनन्तपुरम में निम्नलिखित वैज्ञानिकों/इंजीनियरों ने अपने निवर्तन आयु प्राप्ति के परिणामस्वरूप प्रत्येक के सामने दी गई तारीखों के अपराह्न से कार्यभार छोड़ दिया है :

| क्रम सं. | नाम | पद | कार्यमुक्ति की तिथि |
|----------|-------------------|-------------------------------|---------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| | श्री/श्रीमती/कु. | | |
| 1. | एन. सुकुमारन नायर | वैज्ञानिक/ इंजीनियर-एस.सी. | 31.01.2005 |
| 2. | वी. शिवरामकृष्णन | वैज्ञानिक/ इंजीनियर-एस.ई. | 31.01.2005 |

| 1 | 2 | 3 | 4 |
|----|-----------------------|-------------------------------|------------|
| 3. | टी.सी. प्रताप चन्द्रन | वैज्ञानिक/ इंजीनियर-एस.जी. | 31.01.2005 |
| 4. | डा. मिहिर कुमार जना | वैज्ञानिक/ इंजीनियर-जी. | 28.02.2005 |
| 5. | पी.पी. अब्दुल अजीज | वैज्ञानिक/ इंजीनियर-एस.ई. | 28.02.2005 |
| 6. | आर. विश्वनाथन | वैज्ञानिक/ इंजीनियर-एस.ई. | 31.01.2005 |

मो. इक्रामुल्ला, अवर सचिव

सं. 3/1(2)/2005-I--राष्ट्रपति, अन्तरिक्ष विभाग के विक्रम साराभाई अन्तरिक्ष केन्द्र, तिरुवनन्तपुरम में वरिष्ठ प्रधान, क्रय व भण्डार, श्री एम. आर. रामचन्द्रन की दिनांक 14-01-2005 को हुई मृत्यु पर खेद प्रकट करते हैं।

मो. इक्रामुल्ला, अवर सचिव

सं. 3/1(1)/2005-I--राष्ट्रपति, अन्तरिक्ष विभाग के विक्रम साराभाई अन्तरिक्ष केन्द्र, तिरुवनन्तपुरम में श्री टी. के. जॉय को प्रधान क्रय व भण्डार के पद पर स्थानापन्न रूप में दिनांक 09.02.2005 के पूर्वाह्न से आगामी आदेश तक पदोन्नति पर नियुक्त करते हैं।

मो. इक्रामुल्ला, अवर सचिव

दिनांक 10 नवम्बर 2005

सं. 3/1(1)/2005-I--राष्ट्रपति, अन्तरिक्ष विभाग के विक्रम साराभाई अन्तरिक्ष केन्द्र, तिरुवनन्तपुरम में निम्नलिखित व्यक्तियों को वैज्ञानिक/इंजीनियर-एस.सी. के पद पर अस्थायी रूप में प्रत्येक के सामने दिए गए दिनांकों के पूर्वाह्न से आगामी आदेश तक नियुक्त करते हैं।

| क्रम सं. | नाम | नियुक्ति की तिथि |
|----------|-----------------------|------------------|
| | श्री/श्रीमती/कु. | |
| 1. | बाला एसिपु | 27.01.2005 |
| 2. | गुरुनाथ जी.वी.एस. | 27.01.2005 |
| 3. | जी. मंजु भार्गवी | 31.01.2005 |
| 4. | अलोक कुमार श्रीवास्तव | 31.01.2005 |
| 5. | जसप्रीत सिंह | 31.01.2005 |
| 6. | प्रसन्ना सुब्रमनियन | 31.01.2005 |
| 7. | श्रीजीत टी. एस. | 04.02.2005 |
| 8. | अरविंद कुमार मिश्र | 09.02.2005 |

मो. इक्रामुल्ला, अवर सचिव

योजना आयोग

नई दिल्ली, दिनांक 22 नवम्बर 2005

सं. ए-44011/4/2000-प्रशासन-I--आर्थिक कार्य विभाग के दिनांक 10-11-2005 के आदेश सं. 11016/5/2000-आई.ई.एस. के अनुसारण में योजना आयोग में उप सलाहकार के पदों पर कार्यरत निम्नलिखित आई.ई.एस. के जे.ए.जी. ग्रेड के अधिकारियों को दिनांक 08-11-2005 से 14300-400-18300 रु. के वेतनमान में आई.ई.एस. का एन.एफ.एस. जी. प्रदान किया जाता है :-

- (i) सुश्री सुतपा मजूमदार
- (ii) श्री ए. ए. बामने
- (iii) श्री आर. पी. चन्द्रन

2. उनको एन.एफ.एस.जी. प्रदान करने के परिणामस्वरूप उनके द्वारा धारित उप सलाहकार के पद को उनके लिए व्यक्तिगत उन्नयन करते हुए उन्हें निदेशक का पदनाम दिया जाता है।

3. उपरोक्त अधिकारियों को प्रदान की गई एन.एफ.एस.जी. पद पदोन्नति नागेश सिंह एवं एक अन्य नाम बी.डी. विर्दी और अन्य के संबंध में माननीय सर्वोच्च न्यायालय में लम्बित 2004 की सिविल अपील सं. 1366-1367 के परिणाम के अधीन है।

के. के. छाबड़ा, अवर सचिव

गृह मंत्रालय

नई दिल्ली, दिनांक 23 नवम्बर 2005

सं. 20/जी/2727-प्रशा. 1--राष्ट्रपति, श्री बेविस ए. कुटीनो, भा.प्र.से. (कर्नाटक : 77) को गृह मंत्रालय में संयुक्त सचिव के रूप में दिनांक 23 नवम्बर, 2005 के पूर्वाह्न से पांच वर्षों अथवा अगले आदेशों तक, इनमें से जो पहले हो, के लिए नियुक्त करते हैं।

जे. बी. शर्मा, अवर सचिव

नई दिल्ली, दिनांक 23 नवम्बर 2005

सं. I-18012/2005-आईपीएस-I--भारतीय पुलिस सेवा (परिवीक्षा) नियम, 1954 के नियम 3-क द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, राष्ट्रपति मध्य प्रदेश संवर्ग को आर्बिट्रि भारतीय पुलिस सेवा के निम्नलिखित सदस्यों को, प्रत्येक के सामने दर्शाई गई तारीखों से भारतीय पुलिस सेवा में स्थायी करते हैं :-

| क्रम सं. | अधिकारी का नाम | भारतीय पुलिस सेवा में स्थायी किए जाने की तारीख |
|----------|----------------|--|
|----------|----------------|--|

(सर्व श्री)

| | | |
|----|---------------|------------|
| 1. | जी. डी. लखानी | 19.01.2002 |
| 2. | एम. एस. कंवर | 19.02.2002 |

ओ. एस. अशोक, अवर सचिव

सं. आई-14011/14/2000-आई.पी.एस. I--माननीय गुवाहटी उच्च न्यायालय की इम्फाल बेंच द्वारा रिट पेटिशन सं. 704/2003 में दिनांक 06.07.2005 को दिये गये आदेश के अनुसरण में संघ लोक सेवा आयोग ने 23.09.2005 को यह परामर्श दिया है कि मणिपुर पुलिस सेवा के सदस्य श्री एल. के. हाओकिप के नाम को भारतीय पुलिस सेवा में पदोन्नति द्वारा नियुक्ति के लिये तैयार की गयी वर्ष 2000 की चयन सूची में शामिल किये जाने को शर्तहीन एवं अंतिम माना जाए। अतः भारतीय पुलिस सेवा (पदोन्नति द्वारा नियुक्ति) विनियम, 1955 के विनियम 9 के उप-विनियम (1) के साथ पठित भारतीय पुलिस सेवा (भर्ती) विनियम, 1954 के विनियम 9 के उप-विनियम (1) में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, राष्ट्रपति मणिपुर पुलिस सेवा के सदस्य श्री एल. के. हाओकिप (जन्म तिथि : 01-03-1953) को भारतीय पुलिस सेवा में परीक्षा पर नियुक्त करते हैं तथा उन्हें अगले आदेश तक तत्काल प्रभाव से भारतीय पुलिस सेवा (संवर्ग) विनियम, 1954 के विनियम 5 के उप-विनियम (1) के अन्तर्गत संयुक्त मणिपुर-त्रिपुरा संवर्ग प्रदान करते हैं।

2. तथापि, यह नियुक्ति माननीय उच्च न्यायालय के ऊपर संदर्भित आदेशों के विरुद्ध उसी अथवा उच्चतर न्यायालयों में अपील दायर करने के भारत सरकार एवं संघ लोक सेवा आयोग के अधिकार तथा न्यायालयों के निर्णय के अध्यधीन होगी।

ओ.एस. अशोक, अवर सचिव

दिनांक 25 नवम्बर 2005

सं. आई-18012/7/2005-आई.पी.एस. I--राष्ट्रपति, भारतीय पुलिस सेवा (परिवीक्षा) नियम, 1954 के नियम 3-क द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, भारतीय पुलिस सेवा के हरियाणा संवर्ग के निम्नलिखित सदस्यों को उनके नाम के सामने दर्शाई गई तारीखों से स्थायी करते हैं :-

| क्रम सं. | अधिकारी का नाम | भारतीय पुलिस सेवा में स्थायीकरण की तारीख |
|-------------|--------------------------------|--|
| (सर्व श्री) | | |
| 1. | इन्दर दत्त (सेवानिवृत्त) | 14.03.2001 |
| 2. | राजपाल सिंह | 14.03.2001 |
| 3. | जगरूप सिंह (सेवानिवृत्त) | 14.03.2001 |
| 4. | ओम प्रकाश कादयान (सेवानिवृत्त) | 13.04.2001 |
| 5. | सत प्रकाश | 13.04.2001 |

ओ. एस. अशोक, अवर सचिव

सं. आई-14011/7/2005-आई.पी.एस.-I--भारतीय पुलिस सेवा (पदोन्नति द्वारा नियुक्ति) विनियम, 1955 के विनियम 7 के उप-विनियम (3) में निहित उपबंधों का प्रयोग करते हुए संघ लोक सेवा आयोग ने दिनांक 24.11.2005 को चयन समिति की दिनांक 23.09.2005 की बैठक में इसके द्वारा बनाई गई 2005 की उस चयन सूची को अनुमोदित कर

दिया है जिसमें भारतीय पुलिस सेवा के आंध्र प्रदेश संवर्ग में वर्ष 2005 में पांच मौलिक रिक्तियों को भरे जाने हेतु आंध्र प्रदेश राज्य पुलिस सेवा के निम्नलिखित अधिकारियों का नाम शामिल किया गया है।

| क्रम संख्या | अधिकारी का नाम | जन्म तिथि |
|-------------|-----------------------------------|------------|
| | सर्व श्री | |
| 1. | पी. वी. एस. राम कृष्ण | 27.09.1957 |
| 2. | के. वी. वी. गोपाल राव (अ.पि.जा.) | 04.05.1959 |
| 3. | बी. वी. रमन्ना कुमार (अ. पि. जा.) | 04.02.1958 |
| 4. | पी. मुन्नी स्वामी (अ. जा.) | 01.07.1954 |
| 5. | पी. हरी कुमार (अ. पि. जा.) | 04.04.1960 |

ओ. एस. अशोक, अवर सचिव

सं. आई-14011/7/2005.आई.पी.एस.-1--राष्ट्रपति, भारतीय पुलिस सेवा (पदोन्नति द्वारा नियुक्ति) विनियम, 1955 के विनियम 9 के उप-विनियम (1) के साथ पठित भारतीय पुलिस सेवा (भर्ती) विनियम, 1954 के विनियम 9 के उप-विनियम (1) में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, आंध्र प्रदेश राज्य पुलिस के निम्नलिखित सदस्यों को भारतीय पुलिस सेवा में परिवीक्षा पर नियुक्त करते हैं तथा उन्हें भारतीय पुलिस सेवा (संवर्ग) विनियम, 1954 के विनियम 5 के उप-विनियम (1) के अन्तर्गत आंध्र प्रदेश संवर्ग प्रदान करते हैं। यह नियुक्तियाँ अधिसूचना के जारी होने की तिथि से प्रभावी होंगी।

चयन सूचि 2005

| क्रम संख्या | अधिकारी का नाम | जन्म तिथि |
|-------------|-----------------------|------------|
| | सर्व श्री | |
| 1. | पी. वी. एस. राम कृष्ण | 27.09.1957 |
| 2. | के. वी. वी. गोपाल राव | 04.05.1959 |
| 3. | बी. वी. रमन्ना कुमार | 04.02.1958 |
| 4. | पी. मुन्नी स्वामी | 01.07.1954 |
| 5. | पी. हरी कुमार | 04.04.1960 |

ओ. एस. अशोक, अवर सचिव

(राजभाषा विभाग)

नई दिल्ली, दिनांक 24 नवम्बर 2005

सं. 14034/78/2004-रा.भा. (प्रशि.)--राष्ट्रपति, संघ लोक सेवा आयोग द्वारा की गयी अनुशंसा के फलस्वरूप राजभाषा विभाग, गृह मंत्रालय के अधीनस्थ कार्यालय केन्द्रीय हिन्दी प्रशिक्षण संस्थान/हिन्दी शिक्षण योजना में श्री रामानुज पाण्डेय, सहायक निदेशक (भाषा) को हिन्दी शिक्षण योजना, राजभाषा विभाग, गृह मंत्रालय में उप निदेशक (हिन्दी शिक्षण योजना) के पद पर, रुपये 10000-325-15200 के वेतनमान में, पदोन्नति पर दिनांक 14 नवम्बर, 2005 (पूर्वाह्न) से सहर्ष नियुक्त करते हैं।

एस. रमणन, अवर सचिव

कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय

(कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग)

नई दिल्ली, दिनांक 23 नवम्बर 2005

सं. 23012/06/2004-अ.भा.से.-III--सिविल सेवा परीक्षा 2000 के आधार पर भारतीय प्रशासनिक सेवा के हरियाणा संवर्ग में नियुक्त सुश्री अमनीत रतन, भारतीय प्रशासनिक सेवा (हरियाणा : 2001) का विवाह होने के परिणामस्वरूप, उन्हें अपना नाम सुश्री अमनीत रतन से बदलकर श्रीमती अमनीत पी. कुमार रखने की अनुमति दे दी गई है और उन्हें तदनुसार सभी सरकारी प्रयोजनों के लिए श्रीमती अमनीत पी. कुमार के नाम से जाना जाएगा।

जी. सी. पाण्डेय, अवर सचिव

दिनांक 25 नवम्बर 2005

सं. 14012/23/2004-अ.भा.से.-III--राष्ट्रपति, भारतीय प्रशासनिक सेवा (परिवीक्षा) नियमावली, 1954 के नियम 3-क द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए भारतीय प्रशासनिक सेवा के पंजाब राज्य संवर्ग के निम्नलिखित सदस्य को उनके नाम के सामने उल्लिखित तारीख से भारतीय प्रशासनिक सेवा में स्थायी करते हैं :-

| क्रम संख्या | नाम | बैच | स्थायीकरण की तारीख |
|-------------|--------------------|------|--------------------|
| 1. | श्री राज कमल चौधरी | 1996 | 05.09.1998 |

जी. सी. पाण्डेय, अवर सचिव

नई दिल्ली, दिनांक 25 नवम्बर 2005

सं. 13017/42/2000-अ.भा.से.(I)--भारतीय प्रशासनिक सेवा (संवर्ग) नियमावली, 1954 के नियम 6 (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए तथा असम-मेघालय तथा उत्तरांचल सरकार के परामर्श से एतद्द्वारा केन्द्र सरकार श्री राजीव चन्द्र जोशी, भारतीय प्रशासनिक सेवा (आर.आर. : 94) की असम-मेघालय से उत्तरांचल संवर्ग में प्रतिनियुक्ति विस्तार को 9.8.2004 से आगे 31.12.2005 तक बढ़ाने के लिए इस निर्देश के साथ अनुमोदन प्राप्त करती है कि वह उपर्युक्त तारीख से अपने मूल संवर्ग में वापिस चले जाएंगे। उपर्युक्त तारीख से आगे रुकने पर उन पर अनुशासनिक कार्रवाई की जाएगी तथा उनका वेतन रोक दिया जाएगा।

के. के. शर्मा, डैस्क अधिकारी

विदेश मंत्रालय

नई दिल्ली, दिनांक 2 मई 2005

सं. क्यू/पी ए-1/14/2005--अधिवर्षिता की आयु प्राप्त करने पर भारतीय राजदूतावास, मैड्रिड में राजदूत श्री प्रदीप कुमार सिंह 30 अप्रैल, 2005 के पूर्वाह्न को भारतीय विदेश सेवा ग्रेड-I से सेवानिवृत्त हो गए हैं।

बी. एन. रेड्डी, उप-सचिव (एफएसपी)

सं. क्यू/पी ए-1/13/2005--अधिवर्षिता की आयु प्राप्त करने पर भारतीय राजदूतावास, एथेंस में राजदूत श्री अरूण कुमार बेनर्जी 30 अप्रैल, 2005 के पूर्वाह्न को भारतीय विदेश सेवा ग्रेड-I से सेवानिवृत्त हो गए हैं।

बी. एन. रेड्डी, उप-सचिव (एफ एस पी)

दिनांक 5 मई 2005

सं. क्यू/पी ए-1/16/2005--राष्ट्रपति, वर्तमान समय में भारतीय विदेश सेवा के ग्रेड-II में कार्यरत निम्नलिखित अधिकारी को 1 मई, 2005 की पूर्वाह्न से इस सेवा के ग्रेड-I में स्थानापन्न तौर पर नियुक्त करते हैं।

| क्र. सं. | अधिकारी का नाम | वर्तमान पद | प्रोन्नति के बाद ग्रेड |
|----------|---------------------|-----------------------|------------------------|
| 1. | श्री रिनजिंग वांगदी | भा.वि.से. के ग्रेड-II | भा.वि.से. के ग्रेड-I |

2. भारतीय विदेश सेवा के ग्रेड-I में पदोन्नत होने पर अधिकारी ने 01.05.2005 के पूर्वाह्न से भारतीय विदेश सेवा के ग्रेड-II के पद का कार्यभार छोड़ दिया है और उसी तारीख के पूर्वाह्न से भारतीय विदेश सेवा के ग्रेड-I के पद का पदभार संभाल लिया है।

बी. एन. रेड्डी, उप-सचिव (एफ एस पी)

दिनांक 9 मई 2005

सं. क्यू/पी ए-1/17/2005--नाइजीरिया में भारत के उच्चायुक्त श्री एच. एच. एस. विश्वनाथन को रिपब्लिक ऑफ बेनिन में भारतीय राजदूत के रूप में सह प्रत्यायित किया गया है, जिनका आवास लैगोस (नाइजीरिया) में होगा।

बी. एन. रेड्डी, उप-सचिव (एफ एस पी/संवर्ग)

नई दिल्ली, 18 अक्टूबर 2005

सं. 11/पी ए-III/2005--अधिवर्षिता की आयु प्राप्त करने पर इस मंत्रालय में वरिष्ठ प्रधान निजी सचिव, श्री बी. सी. शर्मा 31 अगस्त, 2005 के पूर्वाह्न को मंत्रालय की सेवा से सेवानिवृत्त हो गए हैं।

रमेश सी. चड्ढा, प्रशासनिक अधिकारी (पी ए-III)

नई दिल्ली, दिनांक 31 अक्टूबर 2005

सं. क्यू/पी ए-1/53/2005--अधिवर्षिता की आयु प्राप्त कर लेने के पश्चात बर्न, स्विट्जरलैंड में भारत के राजदूत श्री प्रवीन लाल गोयल 31 अक्टूबर, 2005 को अपराह्न में भारतीय विदेश सेवा, ग्रेड-I से सेवानिवृत्त हो गये।

अरिन्दम बागची, उप सचिव (एफ एस पी)

सं. क्यू/पी ए-1/55/2005--अधिवर्षिता की आयु प्राप्त कर लेने के पश्चात भारतीय दूतावास, रोम में कौंसलर श्री सुभाष चन्दर भाटिया 31 अक्टूबर, 2005 को अपराह्न में भारतीय विदेश सेवा, ग्रेड-IV से सेवानिवृत्त हो गये।

अरिन्दम बागची, उप सचिव (एफ एस पी)

दिनांक 2 नवम्बर 2005

सं. क्यू/पी ए-1/54/2005--अधिवर्षिता की आयु प्राप्त कर लेने के पश्चात विदेश मंत्रालय में भा. वि. से, ग्रेड-IV के श्री डी. आर. पहुँजा 31 अक्टूबर, 2005 को अपराह्न में सेवानिवृत्त हो गये।

अरिन्दम बागची, उप सचिव (एफ एस पी)

दिनांक 9 नवम्बर 2005

सं. पी ए-II/36/2005--भारतीय विदेश सेवा, शाखा 'ख' के आशुलिपिक संवर्ग में प्रधान निजी सचिव ग्रेड के मूल पदों पर कार्य कर रहे निम्नलिखित अधिकारियों को भारतीय विदेश सेवा, शाखा, 'ख' के आशुलिपिक संवर्ग में वरीय प्रधान निजी सचिव समूह 'क' के अपग्रेडेड पद पर 12000-375-16500 रु. के वेतनमान में 18.10.2005 से पदोन्नति प्रदान करने की स्वीकृति प्रदान की जाती है :--

वर्ष 2004-05

| क्रम सं. | नाम | वर्तमान तैनाती | पदोन्नति की तिथि |
|----------|------------------------|----------------------------------|------------------|
| | सर्व/श्री | | |
| 1. | जी. रामाकृष्णन पोर्टी | भारतीय दूतावास, दी हेग | 18/10/2005 |
| 2. | जगदीश चंद | भारतीय दूतावास, बोगोट | 18/10/2005 |
| 3. | रवीन्द्र सिंह बग्गा | भारत का प्रधान कौंसलावास, टोरंटो | 18/10/2005 |
| 4. | सुभाष चन्दर | मुख्यालय | 18/10/2005 |
| 5. | राज किशोर चावला | पी एम आई, न्यूयार्क | 18/10/2005 |
| 6. | राजेन्द्र प्रसाद | भारतीय दूतावास, रोम | 18/10/2005 |
| 7. | सुरेन्द्र कुमार अरोड़ा | भारतीय दूतावास, दोहा | 18/10/2005 |
| 8. | अनिल कुमार | भारतीय उच्चायोग, निकोसिया | 18/10/2005 |
| 9. | अजय कुमार शर्मा | भारतीय उच्चायोग, प्रिटोरिया | 18/10/2005 |

वर्ष 2005-06

| क्रम सं. | नाम | वर्तमान तैनाती | पदोन्नति की तिथि |
|----------|---------------------|------------------------------|------------------|
| | सर्व/श्री | | |
| 1. | आलोक कुमार | भारतीय उच्चायोग, सन्दन | 18/10/2005 |
| 2. | ए एल अरोड़ा | भारतीय दूतावास, मनीला | 18/10/2005 |
| 3. | एस. राघवन | मुख्यालय | 18/10/2005 |
| 4. | श्रीमती पी. वैकटरमण | मुख्यालय | 18/10/2005 |
| 5. | ए. पार्थसारथी | भारतीय दूतावास, एंटानानारिवो | 18/10/2005 |
| 6. | टीका राम | भारतीय उच्चायोग, गाबोरोन | 18/10/2005 |

अरिन्दम बागची, उप सचिव

वित्त मंत्रालय

(राजस्व विभाग)

नई दिल्ली, दिनांक 31 अगस्त 2005

शुद्धिपत्र

दिनांक 17 अगस्त 2005 की अधिसूचना की प्रथम पंक्ति में उल्लिखित फा. सं. ए. 19013/19/87-प्रशा. 1 के स्थान में ए. 19013/4/2004-प्रशा. 1 क पढ़ा जाए।

आर. के. मल्होत्रा, अवर सचिव

नई दिल्ली, दिनांक 6 अक्टूबर 2005

सं. 112 : (फा. सं. ए.-12026/23/2004-प्रशासन-1)--भारत के राष्ट्रपति, निम्नलिखित तीन अधिकारियों को विदेशी मुद्रा प्रबंध अधिनियम (फेमा) के अंतर्गत प्रवर्तन निदेशालय में प्रत्येक के नाम के सामने दर्शाई गई तारीख से और अगले आदेश होने तक, तीन वर्ष की अवधि के लिए 10,000-15,200/- रु. के वेतनमान में सामान्य प्रतिनियुक्ति शर्तों पर प्रतिनियुक्ति आधार पर सहायक निदेशक के रूप में नियुक्त करते हैं:--

1. श्री के. जे. राव, 30.5.2005 (पूर्वाह्न) से
2. श्री अनिल कुमार सिंह, 20.5.2005 (अपराह्न) से
3. श्री अरविंद कुमार सिंह, 2.6.2005 (पूर्वाह्न) से

प्रीति पंत, अवर सचिव

दिनांक 20 अक्टूबर 2005

सं. 121 : (फा. सं. ए. 12026/23/2004-प्रशासन-1)--इस विभाग की दिनांक 19.9.2002 (फा. सं. 4/13/2002-प्रशा. 1 ग द्वारा जारी) की अधिसूचना के क्रम में भारत के राष्ट्रपति, श्री के. पारसिवैया, सहायक निदेशक, प्रवर्तन निदेशालय, बंगलूर, की प्रतिनियुक्ति अवधि को दिनांक 1.6.2005 से 31.5.2006 तक और अगले आदेशों तक बढ़ाते हैं।

प्रीति पंत, अवर सचिव

दिनांक 25 अक्टूबर 2005

सं. 119 (फा. सं. ए. 11013/2/2004-प्रशा. 1)--भारत के राष्ट्रपति, निम्नलिखित भारतीय राजस्व सेवा (सी. शु. एवं के.उ.शु.) के अधिकारियों को उनके नाम के सामने दर्शाई गई तारीख से अथवा अगले आदेश तक, राजस्व विभाग, सीमा शुल्क एवं केन्द्रीय उत्पाद शुल्क बोर्ड में आयुक्तों के रूप में नियुक्त करते हैं:--

| क्र. सं. | नाम | के रूप में तैनाती | से |
|----------|--|--|------------------------|
| 1. | श्री पी. एस. प्रथी, भार.रा.सेवा (सी.शु. एवं के.उ.शु. : 78) | आयुक्त, (सीमा शुल्क एवं निर्यात संवर्धन) | 18.10.2005 (पूर्वाह्न) |

| 1 | 2 | 3 | 4 |
|----|--|------------------------------------|------------------------|
| 2. | श्री एन. के. भुजबल, भार.रा.सेवा (सी.शु. एवं के.उ.शु. : 81) | आयुक्त, (आर. आई. एण्ड आई.) | 14.10.2005 (पूर्वाह्न) |
| 3. | श्री विनय छावड़ा, भार.रा.से. (सी. शु. एवं के.उ.शु. : 82) | आयुक्त, (समन्वय) | 06.10.2005 (पूर्वाह्न) |
| 4. | श्री राजीव टंडन, भार.रा.से. (सी.शु. एवं के.उ.शु. : 84) | आयुक्त (मुख्यालय) (विधि एवं न्याय) | 06.10.2005 (अपराह्न) |

प्रीति पंत, अवर सचिव

नई दिल्ली, दिनांक 18 नवम्बर 2005

(मुख्यालय स्थापना)

सं. 5/2005 (फा. सं. ए.-15011/4/2002-स.प्रा.)--राष्ट्रपति, भारतीय राजस्व सेवा (आयकर) की अधिकारी तथा पहले आयकर मंडल 21-(1) नई दिल्ली में उपायुक्त के रूप में तैनात श्रीमती प्रिया साहू को प्रतिनियुक्ति के आधार पर 21 सितम्बर, 2005 के पूर्वाह्न से चार वर्ष की अवधि के लिए अथवा अगले आदेशों तक इनमें से जो भी पहले हो, सक्षम प्राधिकारी, नई दिल्ली [तस्कर तथा विदेशी मुद्रा छलसाधक (सम्पत्ति का समपहरण) अधिनियम, 1976 तथा स्वापक औषधि और मनः प्रभावी पदार्थ अधिनियम, 1985] के कार्यालय में संयुक्त आयुक्त के रूप में नियुक्त करते हैं।

2. यह प्रतिनियुक्ति कार्मिक तथा प्रशिक्षण विभाग के समय-समय पर संशोधित दिनांक 5.1.1994 के कार्यालय ज्ञापन सं. 2/29/91-स्थापना (वेतन-II) में निहित निबंधन तथा शर्तों द्वारा शासित होगी।

एस. जी. पी. वर्मा, अवर सचिव

(आर्थिक कार्य विभाग)

बैंकिंग प्रभाग

नई दिल्ली, दिनांक 21 नवम्बर 2005

सं. ए-19011/254/2005-स्थापना--राष्ट्रपति, श्री पी. पी. मित्रा, भारतीय आर्थिक सेवा को दिनांक 16.11.2005 के पूर्वाह्न से 18,400-500-22,400/- रुपये के वेतनमान में वित्त मंत्रालय, आर्थिक कार्य विभाग के बैंकिंग प्रभाग में अगले आदेशों तक, आर्थिक सलाहकार के रूप में नियुक्त करते हैं।

लोखन मरांडी, अवर सचिव

वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय

(वाणिज्य विभाग)

नई दिल्ली, दिनांक 23 नवम्बर 2005

सं. 12/15/93-ईआई एण्ड ईपी--शत्रु सम्पत्ति अधिनियम, 1968 की धारा 3 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राष्ट्रपति, श्री दिनेश सिंह,

आईआरएस (94) को 14 नवम्बर, 2005 (पूर्वाह्न) से चार वर्ष की अवधि के लिए अथवा अगले आदेशों तक, जो भी पहले हो, भारत का शत्रु सम्पत्ति अभिरक्षक नियुक्त करते हैं।

राज सिंह, निदेशक

नई दिल्ली, दिनांक 24 नवम्बर 2005

(पूर्ति प्रभाग)

सं. ए-12022/1/2001-संवर्ग--राष्ट्रपति, इस विभाग के प्रधान निजी सचिव (तदर्थ) श्री के. पी. नायर को केन्द्रीय सचिवालय आशुलिपिक सेवा में निजी सचिव (प्रधान निजी सचिव के रूप में पदनामित) के ग्रेड में रु. 10,000-325-15,200 के वेतनमान में दिनांक 23.06.2005 से, वर्ष 2000 की चयन सूची के संदर्भ में, नियुक्त करते हैं।

2. केन्द्रीय सचिवालय आशुलिपिक सेवा के श्री के. पी. नायर को कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग के दिनांक 26.6.2005 के कार्यालय ज्ञापन सं. 5/7/2003-सी.एस.-II के अनुसरण में शामिल किया जा रहा है और यह इस शर्त के अध्वधीन है कि उनका केन्द्रीय सचिवालय आशुलिपिक सेवा में निजी सचिव ग्रेड में वरीयता का क्रम, वरीयता सूची के क्रम के अनुरूप ही होगा, चाहे निजी सचिव ग्रेड (प्रधान निजी सचिव के रूप में पदनामित) में नियुक्ति की वास्तविक तारीख कुछ भी हो।

3. श्री नायर, प्रधान निजी सचिव की तैनाती पूर्ति तथा निपटान महानिदेशालय में बनी रहेगी।

वी. के. शर्मा, अवर सचिव

(औद्योगिक नीति और संवर्धन विभाग)

नई दिल्ली, दिनांक 6 अक्टूबर 2005

सं. एफ-23014/16/2005-व्य-3--सूचना अधिकार अधिनियम, 2005 की धारा 5(1) के अनुसरण में श्री वाई पी वशिष्ठ, अवर सचिव को औद्योगिक नीति और संवर्धन विभाग से संबंधित सभी मामलों के लिए सहायक जन सूचना अधिकारी के रूप में नियुक्त किया जाता है।

जय प्रकाश, अवर सचिव

सं. एफ-23014/16/2005-व्य-3--सूचना अधिकार अधिनियम, 2005 की धारा 5(1) के अनुसरण में श्री पी सी मीणा, निदेशक, श्री आर एन पांडे, निदेशक, श्री आर एस जुलानिया, निदेशक, श्री एस पी मौर्य, निदेशक, श्री ए के झा, निदेशक, श्री आर के मनचंदा, निदेशक, श्रीमति उमा गोयल, निदेशक, श्री एस के थाड़े, निदेशक, श्री चंचल कुमार, उप सचिव, श्री पी एल केन, उप सचिव, श्री टी सी जेम्स, उप सचिव, श्री पूरण चन्द, उप सचिव, श्री रामजी सिंह, उप सचिव तथा श्रीमती किरण कोच्चर, उप सचिव को औद्योगिक नीति और संवर्धन विभाग से संबंधित सभी मामलों के लिए केन्द्रीय जन सूचना अधिकारी के रूप में नियुक्त किया जाता है।

जय प्रकाश, अवर सचिव

सं. एफ-23014/16/2005-व्य-3--सूचना अधिकार अधिनियम, 2005 की धारा 19(1) के अनुसरण में श्री उमेश कुमार, संयुक्त सचिव

तथा श्री एन एन प्रसाद, संयुक्त सचिव औद्योगिक नीति और संवर्धन विभाग से संबंधित सभी मामलों के लिए अपीलीय प्राधिकारी के रूप में नियुक्त किए जाते हैं।

जय प्रकाश, अवर सचिव

वस्त्र मंत्रालय

नई दिल्ली, दिनांक 21 नवम्बर 2005

सं. 22/2005 (ए-12022/6/2000-स्था.)--राष्ट्रपति, डॉ. (सुश्री) एस. रोहिणी, भारतीय आर्थिक सेवा की एक वरिष्ठ प्रशासनिक ग्रेड (एसएजी) स्तर की अधिकारी को 18,400-500-22,400 रु. के वेतनमान में 18 नवम्बर 2005 से वस्त्र मंत्रालय में आर्थिक सलाहकार के रूप में नियुक्त करते हैं।

चन्द्र भान, निदेशक

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय

नई दिल्ली, दिनांक 22 अगस्त 2005

सं. ए-19011/10/2005-स्थापना--राष्ट्रपति, श्री मंजीत सिंह को कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग के दिनांक 30 मई, 2005 के का. ज्ञा. संख्या 5/11/2002 सी एस II के अंतर्गत वर्ष 2001 के लिए अंचल योजना के तहत केन्द्रीय सचिवालय आशुलिपिक सेवा (सी एस एस एस) के आशुलिपिक वर्ग "क और ख" (विलयित) की चयन सूची में सम्मिलित किए जाने और शहरी विकास मंत्रालय द्वारा कार्यमुक्त किए जाने के परिणामस्वरूप उन्हें पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में 1 अगस्त, 2005 के पूर्वाह्न से 6,500-200-10,500/- रुपये के वेतनमान में सी एस एस एस के निजी सचिव वर्ग "क और ख" (विलयित) के रूप में नियुक्त करते हैं।

तेजवीर सिंह, अवर सचिव

रसायन और उर्वरक मंत्रालय

(उर्वरक विभाग)

नई दिल्ली, दिनांक 21 नवम्बर 2005

सं. ए-19011/20/2005-एचआर-II--महानियंत्रक, लेखा परीक्षा के दिनांक 17.11.2005 के आदेश संख्या ए-22012/2005/ग्रेड ए/1387-95 के अनुसार स्थानांतरण और तैनाती के फलस्वरूप सुश्री सीफिया दहिया, आई.सी.ए.एस. (94) को दिनांक 17.11.2005, पूर्वाह्न से अगले आदेशों तक उर्वरक विभाग में निदेशक (लेखा) के पद पर नियुक्त किया गया है।

जय प्रकाश, अवर सचिव

उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय

(उपभोक्ता मामले विभाग)

नई दिल्ली, दिनांक 23 नवम्बर 2005

संख्या ए-12011/2/52-प्रशा.--राष्ट्रपति, कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग (ए सी सी) के दिनांक 17.11.2005 के आदेश सं. 9/6/2003-ई. ओ. (एस एम-1) के अनुसरण में उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में 18,400-500-22,400 रु. के वेतनमान में संयुक्त सचिव स्तर पर प्रचलित वायदा बाजार आयोग के सदस्य के पद पर डॉ. (श्रीमती) जयश्री गुप्ता, केन्द्रीय सचिवालय सेवा के कार्यकाल को 31.10.2005 से तीन महीने की अवधि के लिए या अगले आदेश तक, जो भी पहले हो, आगे बढ़ाते हैं।

एस. के. त्रायक, अवर सचिव

(खाद्य और सार्वजनिक वितरण विभाग)

नई दिल्ली, दिनांक 10 नवम्बर 2005

सं. ए-32013/1/2004-स्था.-1--राष्ट्रपति खाद्य और सार्वजनिक वितरण विभाग में श्री हर्ष मालवीय को दिनांक 28 अक्टूबर, 2005 के अपराह्न से 10,000-15,200/- रु. के वेतनमान में तदर्थ आधार पर अवर सचिव के रूप में नियुक्त करते हैं।

मो. मोनिरुज्जमान, अवर सचिव

विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय

(विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग)

नई दिल्ली-110016, दिनांक 10 नवम्बर 2005

सं. ए-32013/02/2005-प्रशा.-1(ए)--सक्षम प्राधिकारी, विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग में कनिष्ठ तकनीकी सहायक, श्रीमती रजनी रावत को 6500-200-10,500/- रु. के वेतनमान में नियमित आधार पर कनिष्ठ विश्लेषक (तकनीकी) के रूप में विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग में 24.10.2005 से तथा आगामी आदेशों तक सहर्ष नियुक्त करते हैं।

जे. के. तरिखा, अवर सचिव

दिनांक 11 नवम्बर 2005

सं. ए-12023/03/99-प्रशा. 1(ए)--कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग के दिनांक 14 सितम्बर 2005 के कार्यालय ज्ञापन सं. 5/22/2005-सी. एस. 1 के अनुसरण में तथा संघ लोक सेवा आयोग द्वारा ली गई एल.डी.सी.ई. 2003 के आधार पर परीक्षा कोट में वर्ष 2003 के लिए अनुभाग अधिकारी ग्रेड की चयन सूची में सम्मिलित किए जाने पर राष्ट्रपति, विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय संवर्ग के सहायक, श्री कुलदीप कुमार को 6500-200-10,500/- रुपये के वेतनमान में विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय (विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग) के केन्द्रीय सचिवालय सेवा संवर्ग में अनुभाग अधिकारी के रूप में 11.11.2005 से अथवा आगामी आदेशों तक सहर्ष नियुक्त करते हैं।

2. केन्द्रीय सचिवालय सेवा के अनुभाग अधिकारी ग्रेड में श्री कुलदीप कुमार की नियुक्ति, दिल्ली उच्च न्यायालय में श्री कैलाश चन्द्र तथा अन्य द्वारा भारत के संघ के खिलाफ दायर रिट याचिका (सी) सं. 13245-60/2005 के निर्णय पर आधारित होगी।

जे. के. तरिखा, अवर सचिव

सं. ए-12023/5/98-प्रशा. 1(ए)--सक्षम प्राधिकारी ने सचिव, विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग के वैयक्तिक स्टाफ में निजी सचिव, श्री बी. मणि की 10,000-325-15,200 रुपये के वेतनमान में विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग में स्टाफ अधिकारी के रूप में तदर्थ नियुक्ति की अवधि को 07.11.2005 (पूर्वाह्न) तक बढ़ाने का निर्णय लिया है।

जे. के. तरिखा, अवर सचिव

सं. ए-12023/02/2003-प्रशा. 1(ए)--राष्ट्रपति, विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग में निजी सचिव, श्री बी. मणि को 10,000-325-15,200

रुपये के वेतनमान में तीन वर्ष की अवधि के लिए प्रतिनियुक्ति के आधार पर स्टाफ अधिकारी के रूप में 8 नवम्बर, 2005 के पूर्वाह्न से तथा आगामी आदेशों तक सहर्ष नियुक्त करते हैं।

जे. के. तरिखा, अवर सचिव

(वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान विभाग)

नई दिल्ली-110016, दिनांक 07 नवम्बर 2005

सं. ए-12014-01-2003-प्रशा. 1--राष्ट्रपति श्री राजेश कुमार को 14.10.2005 के पूर्वाह्न से एक वर्ष के लिए अथवा पद के नियमित रूप से भरे जाने तक, जो भी पहले हो, वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान विभाग में 10,000-325-15,200 रुपये के वेतनमान में वैज्ञानिक 'सी' के पद पर पूर्णतया प्रतिनियुक्ति आधार पर एवं इतर सेवा शर्तों पर विपर्यय आधार पर नियुक्त करते हैं।

2. वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान विभाग में उनकी प्रतिनियुक्ति से संबंधित शर्तें एफआरएसआर परिशिष्ट, खण्ड (V) तथा 07.10.2005 के समसंख्यक आदेश द्वारा जारी प्रतिनियुक्ति की मानक शर्तों के अनुसार विनियमित होगी।

गुरमीत सिंह, अवर सचिव

पर्यावरण एवं वन मंत्रालय

नई दिल्ली-110003, दिनांक 1 अगस्त 2005

सं. 12026/2/2003-भा.व. सेवा-I--राष्ट्रपति, श्री जे. सी. काला, भा. व. से (त.ना. 68) को इस मंत्रालय में 26000/- (निर्धारित) के वेतनमान में उनका पदभार ग्रहण करने की तारीख से और 31.10.2006 को उनकी अधिवर्षिता की आयु होने तक, इसमें जो भी पहले हो, वन महानिदेशालय और विशेष सचिव के पद पर प्रतिनियुक्ति आधार पर नियुक्त करते हैं।

ए. के. जौहरी, निदेशक (भा.व. से.)

नई दिल्ली-110003, दिनांक 3 अक्टूबर 2005

सं. 17013/2/2003-भा.व.सेवा-II--भारतीय वन सेवा (पदोन्नति द्वारा नियुक्ति) विनियम, 1966 के विनियम 7 के उपविनियम (3) में निहित उपबंधों का प्रयोग करते हुए वर्ष 2002, 2003 एवं 2004 के लिए वर्षवार चयन सूची तैयार करने के लिए चयन समिति की एक बैठक 13 जून, 2005 को आयोजित की गई थी। संघ लोक सेवा आयोग ने उक्त बैठक में तैयार की गई वर्षवार चयन सूचियों को अनुमोदित कर दिया है जिसमें पहली जनवरी, 2002, 2003 और 2004 तक भारतीय वन सेवा संवर्ग के असम-मेघालय संयुक्त संवर्ग के असम खंड में उपलब्ध पदोन्नत रिक्तियों को भरने के लिए असम राज्य वन सेवा के निम्नलिखित सदस्यों के नाम शामिल हैं:--

चयन सूची, 2002:

| क्र. सं. | अधिकारी का नाम | जन्म-तिथि |
|----------|------------------|------------|
| | श्री/सर्व श्री | |
| *0. | पी.पी. चंगकाकटी | 01.02.1956 |
| 1. | संजीव कुमार बोरा | 01.01.1958 |

| 1 | 2 | 3 |
|----|-----------------------------|------------|
| | श्री/सर्व श्री | |
| 2. | कैलाश खरगड़िया | 12.03.1952 |
| 3. | मो. अब्दुल कुदूस | 01.01.1953 |
| 4. | रूप नाथ ब्रह्मा (अ. जनजाति) | 01.08.1955 |

*उनके विरुद्ध लंबित अनुशासनात्मक कार्यवाही निकासी और राज्य सरकार द्वारा सत्यनिष्ठ प्रमाण-पत्र प्रदान करने की शर्त पर अस्थायी रूप से शामिल।

चयन सूची, 2003 :

| क्र. सं. | अधिकारी का नाम | जन्म-तिथि |
|----------|------------------|------------|
| | श्री/सर्व श्री | |
| @0. | पी. पी. चंगकाकटी | 01.02.1956 |
| 1. | मो देबिरुज जमान | 14.01.1956 |

@ उनके विरुद्ध लंबित अनुशासनात्मक कार्यवाही निकासी और राज्य सरकार द्वारा सत्यनिष्ठ प्रमाण-पत्र प्रदान करने की शर्त पर अस्थायी रूप से शामिल।

चयन सूची, 2004 :

| क्र. सं. | अधिकारी का नाम | जन्म-तिथि |
|----------|---------------------|------------|
| | श्री/सर्व श्री | |
| 1. | मामत कलिता | 01.04.1950 |
| 2. | खनिन्द्रा नाथ बर्मन | 01.01.1956 |

अशोक कुमार, अवर सचिव

दिनांक 13 अक्टूबर 2005

सं. 17013/6/2005-भा.व. सेवा-II--भारतीय वन सेवा (पदोन्नति द्वारा नियुक्ति) विनियमावली, 1966 के विनियम 7 के उपविनियम (3) में निहित उपबंधों का प्रयोग करते हुए वर्ष 2005 की चयन सूची तैयार करने के लिए चयन समिति की बैठक 12 अगस्त, 2005 को आयोजित की गई थी। संघ लोक सेवा आयोग ने उक्त बैठक में तैयार चयन सूची को अनुमोदित कर दिया है जिसमें भारतीय वन सेवा के हिमाचल प्रदेश संवर्ग में 1 जनवरी, 2005 को उपलब्ध पदोन्नति रिक्ति को भरने के लिए हिमाचल प्रदेश राज्य वन सेवा के निम्नलिखित सदस्यों के नाम शामिल हैं:--

| क्र. सं. | अधिकारी का नाम | जन्म-तिथि |
|----------|----------------|------------|
| | (सर्वश्री) | |
| 1. | राजेश शर्मा | 22.08.1966 |
| 2. | पी. डी. डोगरा | 02.02.1955 |

अशोक कुमार, अवर सचिव

दिनांक 7 नवम्बर 2005

सं. 17013/6/2005-भा.व. सेवा-II--राष्ट्रपति, भारतीय वन सेवा (पदोन्नति द्वारा नियुक्ति) विनियम 1966 के विनियम 9 के उपविनियम (1) के साथ पठित भारतीय वन सेवा (भर्ती) नियम, 1966 के नियम 8 के उपनियम (1) में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए हिमाचल प्रदेश राज्य वन सेवा के निम्नलिखित दो अधिकारियों को वर्ष 2005 की चयन सूची के आधार पर भारतीय वन सेवा में तत्काल प्रभाव से नियुक्त करते हैं और भारतीय वन सेवा (संवर्ग) नियम, 1966 के नियम 5 के उपनियम (1)

के अन्तर्गत उन्हें भारतीय वन सेवा का हिमाचल प्रदेश संवर्ग आवंटित करते हैं:

| क्र. सं. | अधिकारी का नाम | जन्म-तिथि |
|----------|----------------|------------|
| | (सर्वश्री) | |
| 1. | राजेश शर्मा | 22.08.1966 |
| 2. | पी. डी. डोगरा | 02.02.1955 |

2. इन दो अधिकारियों को पदोन्नति हिमाचल प्रदेश के माननीय राज्य प्रशासनिक ट्रिब्यूनल के समक्ष लम्बित ओ ए संख्या 502/2000 के अन्तिम फैसले पर निर्भर होगी।

अशोक कुमार, अवर सचिव

सं. 17013/2/2005-भा.व. सेवा-II--राष्ट्रपति, भारतीय वन सेवा (पदोन्नति द्वारा नियुक्ति) विनियम 1966 के विनियम 9 के उपविनियम (1) के साथ पठित भारतीय वन सेवा (भर्ती) नियम, 1966 के नियम 8 के उपनियम (1) में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए असम राज्य वन सेवा के निम्नलिखित सात अधिकारियों को वर्ष 2002, 2003, 2004 की चयन सूची के आधार पर भारतीय वन सेवा में तत्काल प्रभाव से नियुक्त करते हैं और भारतीय वन सेवा (संवर्ग) नियम, 1966 के नियम 5 के उपनियम (1) के अन्तर्गत उन्हें भारतीय वन सेवा में असम मेन्चालय संयुक्त संवर्ग आवंटित करते हैं:--

वर्ष 2002 की चयन सूची

| क्र. सं. | अधिकारी का नाम | जन्म-तिथि |
|----------|----------------------|------------|
| | (सर्वश्री) | |
| 1. | संजीव कुमार बोरा | 01.01.1958 |
| 2. | कैलाश खरगड़िया | 12.03.1952 |
| 3. | मोहम्मद अब्दुल कुदूस | 01.01.1953 |
| 4. | रूप नाथ ब्रह्मा | 01.08.1955 |

वर्ष 2003 की चयन सूची

| क्र. सं. | अधिकारी का नाम | जन्म-तिथि |
|----------|----------------------|------------|
| | (सर्वश्री) | |
| 1. | मोहम्मद देबिरुज जमान | 14.01.1956 |

वर्ष 2004 की चयन सूची

| क्र. सं. | अधिकारी का नाम (सर्वश्री) | जन्म-तिथि |
|----------|---------------------------|------------|
| | (सर्वश्री) | |
| 1. | मामत कलिता | 01.04.1950 |
| 2. | खनिन्द्रा नाथ बर्मन | 01.01.1956 |

अशोक कुमार, अवर सचिव

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय

(स्वास्थ्य विभाग)

नई दिल्ली, दिनांक 23 नवम्बर 2005

सं. ए-12025/30/2002-सी.एच.एस.-VI--राष्ट्रपति, संघ लोक सेवा आयोग की सिफारिशों पर केन्द्रीय स्वास्थ्य सेवा के जन स्वास्थ्य विशेषज्ञ

उप-सर्वग के विशेषज्ञ ग्रेड II के अधिकारी डा. विमुखोवनेह हाओकीप को दिनांक 22.9.2000 के पूर्वाह्न से आगामी आदेशों तक परिवीक्षा पर नियुक्त करते हैं और उनको जन-स्वास्थ्य विशेषज्ञ के पद पर तैनात करते हैं।

राम लाल, अवर सचिव

दिनांक 23 नवम्बर 2005

सं. ए-12025/19/2004-सी.एच.एस.-I--राष्ट्रपति, संघ लोक सेवा आयोग की सिफारिशों पर, डा. शुभला बंसल को 21.6.2005 के पूर्वाह्न से आगामी आदेशों तक केन्द्रीय स्वास्थ्य सेवा के चिकित्सा अधिकारी ग्रेड में 8,000-275-13,500/- रुपये के वेतनमान में अस्थायी आधार पर नियुक्त करते हैं। डा. शुभला बंसल को केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना, मेरठ के अधीन चिकित्सा अधिकारी के पद पर तैनात किया जाता है।

जगदीश कुमार, अवर सचिव

सं. ए-12025/37/2004-सी.एच.एस.-I--राष्ट्रपति, संघ लोक सेवा आयोग की सिफारिशों पर, डा. रवि शंकर को 1.6.2005 के पूर्वाह्न से आगामी आदेशों तक केन्द्रीय स्वास्थ्य सेवा के चिकित्सा अधिकारी ग्रेड में 8,000-275-13,500/- रुपये के वेतनमान में अस्थायी आधार पर नियुक्त करते हैं। डा. रवि शंकर सिंह को राष्ट्रीय संचारी रोग संस्थान, पटना के अधीन चिकित्सा अधिकारी के पद पर तैनात किया जाता है।

जगदीश कुमार, अवर सचिव

दिनांक 24 नवम्बर 2005

सं. ए-12025/149/2004-सी.एच.एस.-I--राष्ट्रपति, संघ लोक सेवा आयोग की सिफारिशों पर, डा. प्रज्ञा को 17.8.2005 के पूर्वाह्न से आगामी आदेशों तक केन्द्रीय स्वास्थ्य सेवा के चिकित्सा अधिकारी ग्रेड में 8,000-275-13,500/- रुपये के वेतनमान में अस्थायी आधार पर नियुक्त करते हैं। डा. प्रज्ञा को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार के अधीन चिकित्सा अधिकारी के पद पर तैनात किया जाता है।

जगदीश कुमार, अवर सचिव

दिनांक 25 नवम्बर 2005

सं. ए-12025/138/94-सी.एच.एस.-I--राष्ट्रपति, संघ लोक सेवा आयोग की सिफारिशों पर, डा. सरोज कुमार पांडेय दिनांक को 21.9.1994 के पूर्वाह्न से आगामी आदेशों तक, केन्द्रीय स्वास्थ्य सेवा के चिकित्सा अधिकारी ग्रेड में 2200-75-2800-दक्षता रोष-100-4000/- रुपये के वेतनमान में अस्थायी आधार पर नियुक्त करते हैं। डा. सरोज कुमार पांडेय को असम राइफल्स के अधीन चिकित्सा अधिकारी के पद पर तैनात किया जाता है।

जगदीश कुमार, अवर सचिव

स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय

नई दिल्ली, दिनांक 2 नवम्बर 2005

सं. ए.-38012/2/2005-प्रशासन-I--सेवानिवृत्ति की आयु हो गयी के फलस्वरूप डा. एस. पी. अग्रवाल, महानिदेशक स्वास्थ्य सेवा

महानिदेशालय दिनांक 31.10.2005 के अपराह्न से सरकारी सेवा से निवृत्त हो गए हैं।

मोहन लाल, उप निदेशक प्रशा. (एम.एल.)

कृषि मंत्रालय

(कृषि एवं सहकारिता विभाग)

नई दिल्ली, दिनांक 14 नवम्बर 2005

सं. 19011/438/2005-स्था. 5/स्था. II--राष्ट्रपति, कृषि एवं सहकारिता विभाग के श्री हरीशचन्द्र की वरिष्ठ विश्लेषक (कार्य अध्ययन) (10,000-15,200/- रुपये) (जी. सी. एस. समूह "क" राजपत्रित) के पद पर दिनांक 31.10.2005 से 30.10.2006 (अपराह्न) तक एक वर्ष के लिए अथवा आगामी आदेश होने तक, इनमें से जो भी पहले हो, प्रतिनियुक्ति अवधि को बढ़ाते हैं।

पी. विजय कुमार, अवर सचिव

दिनांक 22 नवम्बर 2005

सं. 12023/2/2005-स्था. II/स्था. 5--राष्ट्रपति, श्री आर. एस. कनाडे, भारतीय आर्थिक सेवा के वरिष्ठ प्रशासनिक ग्रेड अधिकारी को कृषि एवं सहकारिता विभाग में दिनांक 9.11.2005 (अपराह्न) से और आगामी आदेश होने तक आर्थिक सलाहकार विपणन (वेतनमान 18,400-22,400/- रुपये के रूप में नियुक्त करते हैं।

पी. विजय कुमार, अवर सचिव

सं. 19011/419/2005-स्था. V/स्था. II--राष्ट्रपति, कृषि एवं सहकारिता विभाग के नियमित उपनिदेशक (ऋण) श्री डी. एन. ठाकुर के निदेशक (ऋण) के पद पर तदर्थ नियुक्ति को 28.10.2005 से 6 माह की अवधि तक या नियमित आधार पर पद के भरे जाने तक या आगामी आदेशों तक, इनमें से जो भी पहले हो, के लिये बढ़ाते हैं।

2. यह नियुक्ति पूर्णतया तदर्थ आधार पर है और इससे निदेशक (ऋण) के ग्रेड में वरिष्ठता का दावा करने या कोई अधिकार प्राप्त नहीं होगा।

पी. विजय कुमार, अवर सचिव

(पशुपालन, डेयरी और मत्स्यपालन विभाग)

नई दिल्ली, दिनांक 18 नवम्बर 2005

सं. ए-12025/15/2003-प्रशासन-I--राष्ट्रपति, डॉ. रंजीश कुमार गुप्ता, पशुधन अधिकारी को दिनांक 30.5.2005 की समसंख्यक अधिसूचना के नियम तथा शर्तों के अनुसार 14 अक्टूबर, 2005 के बाद तीन माह के लिए, तीन माह की अवधि के लिए या नियमित पदधारी द्वारा पदभार संभालने तक, जो भी पहले हो तदर्थ नियुक्ति को जारी रखते हुए आवश्यक आयुक्त (पशुधन स्वास्थ्य) नियुक्त करते हैं।

पी. एल. मीना, अवर सचिव

पर्यटन मंत्रालय

नई दिल्ली-110001, दिनांक 10 अक्टूबर 2005

सं. ए.-18015/1/05-प्रशासन-I--

सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 की धारा 5 (2) की शर्तों के अनुसार पर्यटन मंत्रालय के निम्नलिखित अधिकारियों को, उनके नाम के सामने वर्णित विशिष्ट विषय के संबंध में, केन्द्रीय जन सूचना अधिकारियों के रूप में नामित किया जाता है:-

| क्र.सं. | अधिकारी का नाम | पदनाम | टेलीफोन नं. | विशिष्ट विषय |
|---------|-------------------|--|-------------|--|
| 1. | श्री कुलदीप कुमार | उप सचिव (सर्तकता एवं संसद) | 23710379 | सभी सेवा मामले, सर्तकता, योजना, आईटीएवं कार्यक्रमों, सामान्य प्रशासन, अंतर्राष्ट्रीय सहयोग एवं सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रम से संबंधित मामले। |
| 2. | श्री विजय कुमार | उप सचिव (देश में स्थित कार्यालयों एवं एचआरडी) | 23014861 | पर्यटन मंत्रालय के देश में स्थित कार्यालयों, विदेश स्थित भास्त पर्यटन कार्यालयों से संबंधित सभी मामले, मानव संसाधन विकास प्रभाग और किसी अन्य विषय से, संबंधित मामले, जिसे अन्य केन्द्रीय जन सूचना अधिकारी को विशिष्ट रूप से आवंटित नहीं किया गया है। |
| 3. | श्री एम.एम.सडाना | उप महानिदेशक (यात्रा एवं व्यवसाय) | 23019476 | मार्केट अनुसंधान, होटल एवं रेस्तरां, यात्रा एवं व्यवसाय प्रभाग एवं राजभाषा से संबंधित मामले |

ए. आर. गोपालकृष्णन, अवर सचिव

दिनांक 8 नवम्बर 2005

सं. ए.-18015/1/05-प्रशासन-I--

सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 की धारा 5 (2) की शर्तों के अनुसार पर्यटन मंत्रालय के निम्नलिखित अधिकारियों को, प्रत्येक के सामने वर्णित मामलों के संबंध में, केन्द्रीय सहायक जन सूचना अधिकारी के रूप में नामित किया जाता है :-

| क्रम सं० | अधिकारी का नाम | पदनाम | पता | विषय - वस्तु |
|----------|------------------------|----------|------------|---|
| 1. | श्री ए.आर. गोपालकृष्णन | अवर सचिव | परिवहन भवन | प्रशासन से संबंधित मामले |
| 2. | श्रीमती रेणु जैन | अवर सचिव | परिवहन भवन | पर्यटन मंत्रालय के अधीन पीएसयू से संबंधित मामले |

| | | | | |
|-----|------------------------|-----------------|-------------|--|
| 3. | श्री राजेश तिलवार | सहायक महानिदेशक | परिवहन भवन | अंतर्राष्ट्रीय सहयोग से संबंधित मामले |
| 4. | श्री ए.एम. बषीर | सहायक महानिदेशक | परिवहन भवन | योजना एवं समन्वय से संबंधित मामले |
| 5. | श्री एम.आर. पटनायक | सहायक महानिदेशक | परिवहन भवन | साहसिक एवं ग्रामीण पर्यटन एवं जम्मू कश्मीर से संबंधित मामले |
| 6. | श्री गीती एस. भनरा | सहायक महानिदेशक | परिवहन भवन | सूचना प्रौद्योगिकी एवं प्रचार से संबंधी मामले |
| 7. | श्री के.सेन गुप्ता | सहायक महानिदेशक | परिवहन भवन | योजना दक्षिण पश्चिम से संबंधित मामले |
| 8. | श्री के. रायल | अवर सचिव | परिवहन भवन | लेखा, बजट एवं एकीकृत वित्त से संबंधित मामले |
| 9. | श्री एन.के. सैनी | अवर सचिव | परिवहन भवन | लेखा, बजट एवं एकीकृत वित्त से संबंधित मामले |
| 10. | श्री वाई के लैन | सहायक महानिदेशक | सी-1 हटमेटस | एयरआरडी प्रभाग से संबंधित मामले |
| 11. | श्रीमती ए.आर्य | सहायक महानिदेशक | सी-1 हटमेटस | होटलों से संबंधित मामले |
| 12. | श्री शोएब समद | सहायक महानिदेशक | सी-1 हटमेटस | यात्रा व्यवसाय से संबंधित मामले |
| 13. | सुश्री मीनाक्षी मेहता | सहायक महानिदेशक | परिवहन भवन | विदेशी मार्केटिंग एवं आतिथ्य से संबंधित मामले |
| 14. | श्री एस0 रावत | अवर सचिव | सी-1 हटमेटस | पूर्वोत्तर कक्ष से संबंधित मामले |
| 15. | श्री जगदीश चन्द्र | सहायक महानिदेशक | सी-1 हटमेटस | देश स्थित कार्यालयों से संबंधित मामले (केवल पर्यटक संवर्द्धन एवं विंडो डिस्प्ले) |
| 16. | श्री कौशल जोशी | उप निदेशक | सी-1 हटमेटस | मार्केट अनुसंधान से संबंधित मामले |
| 17. | श्री गजेन्द्र कुमार | सहायक महानिदेशक | परिवहन भवन | योजना उत्तर पूर्व से संबंधितअ मामले |
| 18. | श्रीमती रोमा सिंह | सहायक महानिदेशक | जयपुर | भारत पर्यटन कार्यालय, जयपुर से संबंधित मामले |
| 19. | श्री टी.डब्ल्यू सुधाकर | सहायक महानिदेशक | बंगलौर | भारत पर्यटन कार्यालय, बंगलौर से संबंधित मामले |
| 20. | श्रीमती आर मुरली धरन | सहायक निदेशक | चैन्नई | भारत पर्यटन कार्यालय, चैन्नई से संबंधित मामले |
| 21. | श्रीमती नीला अनिल लॉड | सहायक निदेशक | मुम्बई | भारत पर्यटन कार्यालय, मुम्बई से संबंधित मामले |

| | | | | |
|-----|----------------------|--------------|-------------|--|
| 22. | श्री आर.के. गुहाराय | सहायक निदेशक | कोलकाता | भारत पर्यटन कार्यालय, कोलकाता से संबंधित मामले |
| 23. | श्री सुधीर कुमार | सहायक निदेशक | आगरा | भारत पर्यटन कार्यालय, आगरा से संबंधित मामले |
| 24. | श्री एस.के. दास | सहायक निदेशक | इम्फाल | भारत पर्यटन कार्यालय, इम्फाल से संबंधित मामले |
| 25. | श्री एस.एस. देवबर्मन | सहायक निदेशक | शिलांग | भारत पर्यटन कार्यालय, शिलांग से संबंधित मामले |
| 26. | श्री रोशन लाल | सहायक निदेशक | दिल्ली | भारत पर्यटन कार्यालय, दिल्ली से संबंधित मामले |
| 27. | श्री एम0वी0 बाबू | सहायक निदेशक | कोच्चि | भारत पर्यटन कार्यालय, कोच्चि से संबंधित मामले |
| 28. | श्री जे. थोम्बरे | सहायक निदेशक | पणजी | भारत पर्यटन कार्यालय, पणजी, गोवा से संबंधित मामले |
| 29. | श्री जी.सी. भूइया | सहायक निदेशक | भुवनेश्वर | भारत पर्यटन कार्यालय, भुवनेश्वर से संबंधित मामले |
| 30. | श्री वाई. नीलकण्ठम | सहायक निदेशक | पोर्टब्लेयर | भारत पर्यटन कार्यालय, पोर्टब्लेयर से संबंधित मामले |
| 31. | सुश्री एस. टिग्गा, | सहायक निदेशक | हैदराबाद | भारत पर्यटन कार्यालय, हैदराबाद से संबंधित मामले |

ए. आर. गोपालकृष्णन, अवर सचिव

सं. ए-18015/1/05-प्रशासन-I--

दिनांक 10 अक्टूबर, 2005 की इस मंत्रालय की अधिसूचना सं0-ए-18015/1/05-प्रशा0-I के अधिक्रमण में, सूचना अधिकार अधिनियम, 2005 की धारा 5 (1) की शर्तों के अनुसार, पर्यटन मंत्रालय के निम्नलिखित अधिकारियों को, प्रत्येक के सामने वर्णित मामलों के संबंध में, केन्द्रीय जनसूचना अधिकारियों के रूप में नामित किया जाता है :-

| क्रम सं0 | अधिकारी का नाम | पदनाम | पता | विषय-वस्तु |
|----------|---------------------|--------|------------------------------|---|
| 1. | श्री अतुल चतुर्वेदी | निदेशक | परिवहन भवन, नई दिल्ली-110001 | प्रशासन से संबंधित सभी सेवा मामले, आई0टी0 डी0सी, योजना एवं समन्वय, अंतर्राष्ट्रीय सहयोग, साहसिक एवं ग्रामीण पर्यटन, जम्मू एवं कश्मीर। |
| 2. | श्रीमती लीला नन्दन | निदेशक | परिवहन भवन, नई दिल्ली-110001 | प्रचार, सूचना प्रौद्योगिकी, योजना दक्षिण, पश्चिम, उत्तर एवं पूर्व। |

| | | | | |
|-----|----------------------|-------------------|---|--|
| 3. | श्री वी०के० बजाज | संयुक्त महानिदेशक | सी-1 हटमेंट्स, नई दिल्ली-110011 | मार्केट अनुसंधान । |
| 4. | श्री मनोज सेठी | वित्त नियंत्रक | परिवहन भवन, नई दिल्ली-110001 | लेखा, बजट और एकीकृत वित्त से संबंधित मामले । |
| 5. | श्री कुलदीप कुमार | उप सचिव | परिवहन भवन, नई दिल्ली-110001 | सतर्कता, पूर्वोत्तर कक्ष, संसद से संबंधित मामले । |
| 6. | श्री विजय कुमार | उप सचिव | सी-1 हटमेंट्स, नई दिल्ली-110011 | मानव संसाधन विकास प्रभाग और देश स्थित कार्यालय प्रभाग से संबंधित मामले (केदल पर्यटन संवर्धन एवं विंडो डिस्पले) । |
| 7. | श्री एम.एम. सडाना | उप महानिदेशक | सी-1 हटमेंट्स, नई दिल्ली-110011 | यात्रा व्यवसाय से संबंधित मामले । |
| 8. | श्री एम.एन. जावेद | उप महानिदेशक | सी-1 हटमेंट्स, नई दिल्ली-110011 | होटलों से संबंधित मामले । |
| 9. | श्री के.आर. आर्य | उप महानिदेशक | परिवहन भवन, नई दिल्ली-110001 | विदेशी मार्केटिंग एवं आतिथ्य से संबंधित मामले । |
| 10. | श्रीमती मधु गोस्वामी | संयुक्त निदेशक | सी-1 हटमेंट्स, नई दिल्ली-110011 | राजभाषा से संबंधित मामले । |
| 11. | श्रीमती अल्का कोहली | क्षेत्रीय निदेशक | भारत पर्यटन, “ एम्बेसी ” , 4- शेक्सपियर सारणी, कोलकाता-700071 | पूर्वी क्षेत्र के भारत पर्यटन कार्यालयों से संबंधित मामले । |
| 12. | श्री एस० एल० खिरियम | क्षेत्रीय निदेशक | भारत पर्यटन, जी एल पब्लिकेशन कॉम्प्लेक्स, जीएस रोड, गुवाहाटी - 781006 | पूर्वोत्तर क्षेत्र के भारत पर्यटन कार्यालयों से संबंधित मामले । |
| 13. | श्री एस० पी० सिंह | क्षेत्रीय निदेशक | भारत पर्यटन, 123, एम कार्वे रोड, चर्च गेट के सामने, मुम्बई-400020 | पश्चिमी क्षेत्र के भारत पर्यटन कार्यालयों से संबंधित मामले । |
| 14. | श्री डी० सुभाष | क्षेत्रीय निदेशक | भारत पर्यटन, 154, अन्ना सलाई, चैन्नई- 600002 | दक्षिणी क्षेत्र के भारत पर्यटन कार्यालयों से संबंधित मामले । |
| 15. | श्री के.एल. दास | क्षेत्रीय निदेशक | भारत पर्यटन, 88- जनपथ, नई दिल्ली | उत्तरी क्षेत्र के भारत पर्यटन कार्यालयों से संबंधित मामले । |

2. श्री राजीव तलवार, अपर महानिदेशक को पर्यटन मंत्रालय से संबंधित सभी मामलों के लिए अपीली प्राधिकरण के रूप में नामित किया गया है ।

ए. आर. गोपालकृष्णन, अवर सचिव

रेल मंत्रालय (रेलवे बोर्ड)

नई दिल्ली, दिनांक 22 नवम्बर 2005

सं. ई आर बी-I/2005/3/1--

रेलवे बोर्ड के निम्नलिखित सहायकों को उनके नामों के सामने दर्शाई गई तारीख के पूर्वाह्न से 6500-10500/- रु. (आर एस आर पी) के वेतनमान में तदर्थ आधार पर रेलवे बोर्ड सचिवालय सेवा के अनुभाग अधिकारियों के रूप में नियुक्त किया गया है.

| क्रम सं. | नाम (सर्वश्री) | नियुक्ति की तारीख |
|----------|----------------------------|-------------------|
| 1. | सुबोध कुमार | 31.10.2005 |
| 2. | श्रीमती दमयंती परवानी | 28.10.2005 |
| 3. | मेलन राम | 28.10.2005 |
| 4. | लक्ष्मी नारायण | 28.10.2005 |
| 5. | राजेन्द्र सिंह | 28.10.2005 |
| 6. | जी. एस. मदान | 28.10.2005 |
| 7. | अशोक कुमार जैन | 31.10.2005 |
| 8. | मुकुंद लाल | 28.10.2005 |
| 9. | एम. आर. शर्मा | 28.10.2005 |
| 10. | सुभाष चन्द्र-II | 31.10.2005 |
| 11. | श्रीमती इन्दु चन्दर | 28.10.2005 |
| 12. | आर.के.शर्मा | 28.10.2005 |
| 13. | श्रीमती निशा टहिलियानी | 28.10.2005 |
| 14. | बी.एस. गुसाई | 28.10.2005 |
| 15. | श्रीमती चन्दा पासबोला | 28.10.2005 |
| 16. | ओम प्रकाश-V | 31.10.2005 |
| 17. | श्रीमती मधु मलिक | 28.10.2005 |
| 18. | श्रीमती लता थवानी | 28.10.2005 |
| 19. | श्रीमती सी. ज्योति प्रसाद | 28.10.2005 |
| 20. | एच. डी. लोहानी | 28.10.2005 |
| 21. | पी.के.चक्रवर्ती | 28.10.2005 |
| 22. | एस. सी. भारद्वाज | 28.10.2005 |
| 23. | सूरत सिंह | 28.10.2005 |
| 24. | श्रीमती विनोद बात्या शर्मा | 28.10.2005 |

| | |
|------------------------|------------|
| 25. ब्रह्म भटनागर | 28.10.2005 |
| 26. ए.के. क्षीरसागर | 28.10.2005 |
| 27. टी.के. डे | 28.10.2005 |
| 28. पी. एल. शर्मा | 28.10.2005 |
| 29. आर.के. खास | 28.10.2005 |
| 30. एम. एल. चौधरी | 28.10.2005 |
| 31. श्रीमती अनिता भट्ट | 28.10.2005 |
| 32. पाले राम | 28.10.2005 |
| 33. सुनील प्रभात | 31.10.2005 |
| 34. श्रीमती एच.बी. दुआ | 28.10.2005 |
| 35. देव राज | 28.10.2005 |
| 36. श्रीमती नीलम बेदी | 31.10.2005 |
| 37. शंकर लाल रज़ाक | 28.10.2005 |
| 38. निरंजन | 28.10.2005 |
| 39. शिव राम | 28.10.2005 |
| 40. रविन्द्र कुमार | 28.10.2005 |
| 41. पॉल बरूआ | 28.10.2005 |
| 42. श्रीमती नूतन मिंज | 28.10.2005 |
| 43. ए.के. प्रसाद | 28.10.2005 |

एम. के. अग्रवाल, सचिव

दिनांक 24 नवम्बर 2005

सं. ई आर बी-I/2005/2/66--

श्री ए. बी. सिद्दीकी, ए एस सी/सी सी बी, रेलवे बोर्ड को 25.10.2005 के पूर्वाह्न से 10000-15200/- रु. के ग्रेड में उप निदेशक/सी सी बी, रेलवे बोर्ड के रूप में नियुक्त किया जाता है.

एम. के. अग्रवाल, सचिव

VICE-PRESIDENT'S SECRETARIAT

New Delhi, the 26th November 2005

No. 03/04/2005-Admn.—The President is pleased to appoint Shri Bahadur Singh Rathaur, as Private Secretary to Hon'ble Vice-President of India with effect from the forenoon of 24th November, 2005 in the pay-scale of Rs. 12,000-16,500/- on coterminus basis or till further orders, whichever is earlier.

ASHOK DEWAN, Deputy Secy.

RAJYA SABHA SECRETARIAT

New Delhi-110001, the 22nd November 2005

No. RS/41 (i)/2005/60-Perl.—The Hon'ble Chairman, Rajya Sabha has been pleased to sanction financial upgradation in accordance with the Assured Career Progression Scheme in respect of the following person in the grade Parliamentary Interpreter with effect from 21st November, 2005:—

| Sl. No. | Name | Present Pay Scale | Revised Pay Scale |
|---------|------------------------|-----------------------|-----------------------|
| 1. | Shri K. S. Somashekhar | Rs. 10,000-325-15,200 | Rs. 12,000-375-16,500 |

2. The other conditions of the financial upgradation would be as per the Recruitment and Conditions of Service Order dated the 5th October, 2001.

P. R. GUHA ROY, Director

The 29th November 2005

No. RS/41 (i)/2005/61-Perl.—The Hon'ble Chairman, Rajya Sabha has been pleased to sanction financial upgradation in accordance with the Assured Career Progression Scheme in respect of the following person in the grade of Assistant Editor with effect from the 29th November, 2005:—

| Sl. No. | Name | Present Pay Scale | Revised Pay Scale |
|---------|------------------------|----------------------|-----------------------|
| 1. | Shri Ashok Kumar Phull | Rs. 8,000-275-13,500 | Rs. 10,000-325-15,200 |

2. The other conditions of the financial upgradation would be as per the Recruitment and Conditions of Service Order dated the 5th October, 2001.

P. R. GUHA ROY, Director

DEPARTMENT OF SPACE

Bangalore-560 094, the 8th November 2005

No.3/1 (I) 2005-1—The President is pleased to appoint the undermentioned persons as Scientists/Engineers-SC in the Vikram Sarabhai Space Centre, Thiruvananthapuram of the

Department of Space on temporary capacity with effect from the forenoon of the dates mentioned against each:—

| Sl. No. | Name | Date of appointment |
|---------|-----------------------|---------------------|
| | Shri/Smt/Kum | |
| 1. | Yogin S. Sirsi | 07.01.2005 |
| 2. | Nitin Kumar | 07.01.2005 |
| 3. | Navdeep Bhargava | 07.01.2005 |
| 4. | Gupteshwar Nath Singh | 07.01.2005 |
| 5. | Vinu Paul | 10.01.2005 |
| 6. | A. Shunmugavel | 12.01.2005 |
| 7. | Ganesh P. | 19.01.2005 |
| 8. | Raghuram P. R. | 25.01.2005 |
| 9. | Piyush Sinha | 25.01.2005 |

Md. IKRAMULLA, Under Secy.

The 9th November 2005

No. 3/1(1)2005-1.—The President is pleased to appoint the undermentioned persons as Scientists/Engineers-SC in the Vikram Sarabhai Space Centre, Thiruvananthapuram of the Department of Space on temporary capacity with effect from the forenoon of the dates mentioned against each:—

| Sl. No. | Name | Date of appointment |
|---------|---------------------------|---------------------|
| | Shri/Smt/Kum | |
| 1. | Sajeev R. | 21.02.2005 |
| 2. | Ritu Singh | 04.01.2005 |
| 3. | Nayana Thakur | 04.01.2005 |
| 4. | Vennila M. | 05.01.2005 |
| 5. | Sundara Vadiyel K. | 03.01.2005 |
| 6. | G. Antony Neethi Manickam | 10.02.2005 |

Md. IKRAMULLA, Under Secy.

No.3/1(2)/2005-1.—Consequent on attaining the age of Superannuation the following Scientists/Engineers in the Vikram Sarabhai Space Centre, Thiruvananthapuram of the Department of Space have relinquished the charge of the post with effect from the afternoon of the dates mentioned against each:—

| Sl. No. | Name | Post | Date of relief |
|---------|--------------------|-----------------------|----------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| | Shri/Smt/Kum | | |
| 1. | N. Sukumaran Nair | Scientist/Engineer-SC | 31.01.2005 |
| 2. | V. Sivaramkrishnan | Scientist/Engineer-SE | 31-01-2005 |

| 1 | 2 | 3 | 4 |
|----|-----------------------|-----------------------|------------|
| 3. | T. C. Pratap Chandran | Scientist/Engineer-SG | 31-01-2005 |
| 4. | Dr. Mihir Kumar Jana | Scientist/Engineer-G | 28-02-2005 |
| 5. | P. P. Abdul Azeez | Scientist/Engineer-SE | 28-02-2005 |
| 6. | R. Viswanathan | Scientist/Engineer-SG | 31-01-2005 |

Md. IKRAMULLA, Under Secy.

No. 3/1(2)/2005-1— The President regrets to announce the death of Shri M.R. Ramachandran, Senior Head Purchase and Stores in the Vikram Sarabhai Space Centre, Thiruvananthapuram of the Department of Space on 14.01.2005.

Md. IKRAMULLA, Under Secy.

No. 3/1(1)/2005-1— The President is pleased to appoint on promotion Shri T.K. Joy as Head Purchase and Stores in the Vikram Sarabhai Space Centre, Thiruvananthapuram of the Department of Space in an officiating capacity with effect from the forenoon of 09.02.2005 and until further orders.

Md. IKRAMULLA, Under Secy.

The 10th November 2005

No. 3/1(1)/2005-1— The President is pleased to appoint the undermentioned Persons as Scientists/Engineers-SC in the Vikram Sarabhai Space Centre, Thiruvananthapuram of the Department of Space on temporary capacity with effect from the forenoon of the dates mentioned against each:

| Sl. No. | Name | Date of appointment |
|---------|-------------------------|---------------------|
| 1. | Shri/Smt/Kum Bala Asiqu | 27.01.2005 |
| 2. | Gurunath G.V.S. | 27.01.2005 |
| 3. | G. Manju Bhargavi | 31.01.2005 |
| 4. | Alok Kumar Srivastava | 31.01.2005 |
| 5. | Jaspreet Singh | 31.01.2005 |
| 6. | Prasanna Subramanian | 31.01.2005 |
| 7. | Sreejith T.S. | 04.02.2005 |
| 8. | Arvind Kumar Mishra | 09.02.2005 |

Md. IKRAMULLA, Under Secy.

PLANNING COMMISSION

New Delhi, the 22nd November 2005

No. A-44011/4/2000-Adm.I— In pursuance of Department of Economic Affairs' Order No. 11016/5/2000-IES dated 10.11.2005, the following Junior Administrative Grade Officers

of IES working as Deputy Advisers in the Planning Commission are granted Non-Functional Selection Grade of the Service in the scale of pay of Rs. 14300-400-18300/- with effect from 08.11.2005:-

(i) Ms. Sutapa Majumdar

(ii) Shri A. A. Bamne

(iii) Shri. R. P. Chandran

2. Consequent on being placed in NFSG of IES, they are designated as Directors by upgrading the posts of Deputy Adviser as personal to them.

3. The grant of NFSG to the above mentioned officer is subject to the result of Civil Appeal No. (s) 1366-1367 of 2004 pending in the Hon'ble Supreme Court in the case of Nagesh Singh & Another Vs. B.D. Viridi & Ors.

K.K. CHHABRA, Under Secy.

MINISTRY OF HOME AFFAIRS

New Delhi, the 23rd November 2005

No.20/G/2727-Ad.I— The President is pleased to appoint Shri B.A. Coutinho, IAS (KN:77), as Joint Secretary in the Ministry of Home Affairs with effect from the forenoon of the 23rd November 2005, for a period of five years or until further orders, whichever event takes place earlier.

J.B. SHARMA, Under Secy.

New Delhi, the 23rd November 2005

No.I-18012/1/2005-IPS-I— In exercise of the powers conferred by Rule 3-A of the Indian Police Service (Probation) Rules, 1954, the President is pleased to confirm the following members of the Indian Police Service, allocated to the Cadre of Madhya Pradesh in the Indian Police Service, with effect from the dates indicated against each.

| Sl. No. | Name of the officer | Date of confirmation in the IPS |
|---------|---------------------|---------------------------------|
| 1. | Shri G. D. Lakhani | 19.01.2002 |
| 2. | Shri M. S. Kanwar | 19.01.2002 |

O. S. ASHOK, Under Secy.

No. 1-14011/14/2000-IPS. I—In compliance with the directions dated 06.07.2005 passed by Hon'ble Guwahati High Court, Imphal Bench, in Writ Petition No. 704/2003, Union Public Service Commission has made the inclusion of the name of Shri L. K. Haokip, a member of Manipur Police Service in the Select List of 2000 of Joint IPS Cadre Manipur-Tripura, prepared for induction of State Police Service officers of Punjab to Indian Police Service, as unconditional and final, on 23.09.2005.

2. Therefore in exercise of the powers conferred by sub-rule (1) of rule 9 of the Indian Police Service (Recruitment)

Rules, 1954, read with sub-regulation (1) of regulation 9 of the Indian Police Service (Appointment by Promotion) Regulations, 1955, the President is pleased to appoint Sh. L. K. Haokip (Date of Birth: 01.03.1953), a member of Manipur Police Service to the Indian Police Service on probation and to allocate him to the Joint Cadre of Manipur-Tripura, under sub-rule (1) of the rule 5 of the Indian Police Service (Cadre) rules, 1954 with immediate effect, until further orders.

3. The appointment shall, however, be subject to the right of Government of India and that of UPSC to challenge the aforementioned order of the Hon'ble High Court in the same or in higher court(s) and its/their outcome(s) respectively.

O. S. ASHOK, Under Secy.

The 25th November 2005

No.1-18012/7/2005-IPS-I— In exercise of the powers conferred by Rule 3-A of the Indian Police Service (Probation) Rules, 1954, the President is pleased to confirm the following members of the Indian Police Service, allocated to the cadre of Haryana in the Indian Police Service, with effect from the dates indicated each:—

| Sl. No. | Name of the officer | Date of confirmation in the IPS |
|---------|---------------------------|---------------------------------|
| | (S/Shri) | |
| 1. | Inder Dutt (Retd.) | 14.03.2001 |
| 2. | Rajpal Singh | 14.03.2001 |
| 3. | Jagroop Singh (Retd.) | 14.03.2001 |
| 4. | Om Prakesh Kadyan (Retd.) | 13.04.2001 |
| 5. | Sat Prakesh | 13.04.2001 |

O. S. ASHOK, Under Secy.

No.1-14011/7/2005-IPS.I— In exercise of the provisions contained in sub-regulation (3) of Regulation 7 of the Indian Police Service (Appointment by Promotion) Regulations, 1955, the union Public Service Commission has on 24.11.2005, approved the Select List of 2005, prepared by the Selection Committee in its meeting held on 23.09.2005, containing the names of the following State Police service officers of Andhra Pradesh, towards filling up five substantive vacancies in the IPS Andhra Pradesh Cadre during 2005.

| Sl. No. | Name of the officer | Date of Birth |
|---------|-------------------------|---------------|
| | (S/Shri) | |
| 1. | P.V.S Rama Krishna | 27.09.1957 |
| 2. | K.V.V Gopal Rao (OBC) | 04.05.1959 |
| 3. | B.V. Ramana Kumar (OBC) | 04.02.1958 |
| 4. | P. Muni Swamy (SC) | 01.07.1954 |
| 5. | P. Hari Kumar (OBC) | 04.04.1960 |

O. S. ASHOK, Under Secy.

No.1-14011/7/2005-IPS.I— In exercise of the powers conferred by sub-rule (1) of rule 9 of the Indian Police Service (Recruitment) Rules, 1954, read with sub-regulation (1) of regulation 9 of the Indian Police Service (appointment by Promotion) Regulations, 1955, the President is pleased to appoint the following members of Andhra Pradesh Police Service to the Indian Police Service on probation and to allocate them to the cadre of Andhra Pradesh under sub-rule (1) of the rule 5 of the Indian Police Service (Cadre) rules, 1954. The appointments will take effect from the date of issue of this notification:—

Select List of 2005

| Sl. No. | Name of the officer | Date of Birth |
|---------|---------------------|---------------|
| | (S/Shri) | |
| 1. | P.V.S Rama Krishna | 27.09.1957 |
| 2. | K.V.V Gopal Rao | 04.05.1959 |
| 3. | B.V. Ramana Kumar | 04.02.1958 |
| 4. | P. Muni Swamy | 01.07.1954 |
| 5. | P. Hari Kumar | 04.04.1960 |

O. S. ASHOK, Under Secy.

DEPARTMENT OF OFFICIAL LANGUAGE

New Delhi, the 24th November 2005

No.14034/78/2004-OL(Trg.)— The President, on the recommendation of the Union Public Service Commission, is pleased to appoint Shri Ramanuj Pandey, Assistant Director (Language) Central Hindi Training Institute/ Hindi Teaching Scheme, a subordinate officer of the Department of official Language, Ministry of Home Affairs as Deputy Director (Hindi Teaching Scheme), in the Pay Scale of Rs. 10000-325-15200, on promotion, with effect from the forenoon of 14th November, 2005.

S. RAMANAN, Under Secy.

MINISTRY OF PERSONNEL P.G AND PENSIONS

(DEPARTMENT OF PERSONNEL & TRAINING)

New Delhi, the 23rd November 2005

No.23012/06/2004-AIS-III— Consequent upon her marriage Mrs. Amneet Rattan, IAS (HY:2001) appointed to the Indian Administrative Service on the basis of the Civil Service Examination 2000 and borne the Cadre of Haryana, has been permitted to change her name from Ms Amneet Rattan to Mrs. Amneet P. Kumar and will accordingly be recognized as Mrs. Amneet P. Kumar for all official purposes.

G. C. PANDEY, Under Secy.

The 25th November 2005

No. 14012/23/2004-AIS-III—In exercise of the powers conferred by rule 3A of the Indian Administrative Service (Probation) Rules, 1954, the President is pleased to confirm, in the Indian Administrative Service, the following members of the Indian Administrative Service borne on the State Cadre of Punjab, with effect from the date shown against him:—

| Sl. No. | Name | Batch | Date of Confirmation |
|---------|-------------------------|-------|----------------------|
| 1. | Shri Raj Kama Chaudhuri | 1996 | 05.09.1998 |

G.C. PANDEY, Under Secy.

New Delhi, the 25th November 2005

No. 13017/42/2000-AIS(I).—In exercise of the power conferred by Rule 6(1) of the Indian Administrative Service (Cadre) Rules, 1954 and with the concurrence of the Governments of Assam-Meghalaya and Uttaranchal, the Central Government hereby accords approval for extension of deputation of Shri Rajeev Chandra Joshi, IAS (RR : 94) from Assam-Meghalaya to Uttaranchal Cadre beyond 9.8.2004 upto 31.12.2005 with the direction that he should stand reverted to his cadre by that date. Overstay beyond that date will attract disciplinary proceedings and stoppage of salary.

K.K. SHARMA, Desk Officer

MINISTRY OF EXTERNAL AFFAIRS

New Delhi, the 2nd May 2005

No. Q/PA-I/14/2005.—On attaining the age of superannuation, Shri Pradeep Kumar Singh, Ambassador, Embassy of India, Madrid, retired from Grade I of the Indian foreign Service on the afternoon of April 30, 2005.

B.N. REDDY, Dy. Secy. (FSP)

No. Q/PA-I/13/2005.—On attaining the age of superannuation, Shri Arun Kumar Banerjee, Ambassador, Embassy of India, Athens, retired from Grade I of the Indian Foreign Service on the afternoon of April 30, 2005.

B.N. REDDY, Dy. Secy. (FSP)

The 5th May 2005

No. Q/PA-I/16/2005.—The President is pleased to appoint the following officer presently in Grade-II of the Indian Foreign Service (IFS) to officiate in Grade-I of the Service with effect from the forenoon of 1st May, 2005.

| Sl. No. | Name of the Officer | Present Grade | Grade after Promotion |
|---------|---------------------|-----------------|-----------------------|
| 1. | Shri Rinzing Wangdi | Grade-II of IFS | Grade-I of IFS |

2. On promotion to Grade-I of IFS, the officer relinquished charge of the post in Grade-II of IFS on the forenoon of 01.05.2005 and assumed charge of the post in Grade-I of the IFS, with effect from forenoon of the same date.

B.N. REDDY, Dy. Secy. (FSP)

The 9th May 2005

No. Q/PA-I/17/2005.—Shri H.H.S. Viswanathan, High Commissioner of India to Nigeria has been concurrently accredited as the Ambassador of India to the Republic of Benin with residence at Lagos (Nigeria).

B.N. REDDY, Dy. Secy. (FSP)

New Delhi, the 18th October 2005

No. 11/PB-III/2005.—On attaining the age of superannuation, Shri B.C. Sharma, Sr. Principal Private Secretary, relinquished charge of his duties in the Ministry on 31st August, 2005.

RAMESH C. CHADHA, Administrative Officer (PB-III)

New Delhi, the 31st October 2005

No. Q/PA-I/53/2005.—On attaining the age of superannuation, Shri Praveen Lal Goyal, Ambassador of India to Switzerland, Embassy of India, Berne, retired from Grade I of the Indian Foreign Service on the afternoon of October 31, 2005.

ARINDAM BAGCHI, Dy. Secy. (FSP)

No. Q/PA-I/55/2005.—On attaining the age of superannuation, Shri Subhash Chander Bhatia, Counsellor in the Embassy of India, Rome, retired from Grade IV of the Indian Foreign Service on the afternoon of 31st October, 2005.

ARINDAM BAGCHI, Dy. Secy. (FSP)

The 2nd November 2005

No. Q/PA-I/54/2005.—On attaining the age of superannuation, Shri D. R. Pahuja, Grade IV of IFS at the Headquarters of Ministry of External Affairs, retired on the afternoon of 31st October, 2005.

ARINDAM BAGCHI, Dy. Secy. (FSP)

New Delhi, the 9th November 2005

No. PA-II/36/2005.—The undermentioned officers holding substantive posts in the Grade of Principal Private Secretary

in Stenographers' cadre of Indian Foreign Service, Branch 'B' had been approved for promotion to the upgraded post of Senior Principal Private Secretary Group 'A' Stenographers Cadre of the Indian Foreign Service Branch 'B' in the scale of Rs. 12,000-375-16500/- with effect from 18-10-2005:—

Year 2004-05

| Sl. No. | Name | Present Deployment | Date of promotion |
|---------|-----------------------|--------------------|-------------------|
| S/Shri | | | |
| 1. | G. Ramakrishnan Potti | E/I, The Hague | 18-10-05 |
| 2. | Jagdish chand | E/I, Bogota | 18-10-05 |
| 3. | Ravinder Singh Bagga | CGI, Toronto | 18-10-05 |
| 4. | Subhash Chander | Hqrs. | 18-10-05 |
| 5. | Raj Kishore Chawla | PMI, New York | 18-10-05 |
| 6. | Rajendra Prashad | E/I, Rome | 18-10-05 |
| 7. | Surendra Kumar Arora | E/I, Doha | 18-10-05 |
| 8. | Anil Kumar | HCI, Nicosia | 18-10-05 |
| 9. | Ajay Kumar Sharma | HCI, Pretoria | 18-10-05 |
| 10. | Jasbir Singh-II | E/I, Brussels | 18-10-05 |

Year 2005-06

| Sl. No. | Name | Present Deployment | Date of promotion |
|---------|----------------------|--------------------|-------------------|
| S/Shri | | | |
| 1. | Alok Kumar | HCI, London | 18-10-05 |
| 2. | AL Arora | E/I, Manila | 18-10-05 |
| 3. | S. Raghavan | Hqrs. | 18-10-05 |
| 4. | Smt. P. Venkataraman | Hqrs. | 18-10-05 |
| 5. | A. Parthasarthy | E/I, Antananarivo | 18-10-05 |
| 6. | Tika Ram | HCI, Gaborone | 18-10-05 |

ARINDAM BAGCHI, Dy. Secy.

MINISTRY OF FINANCE

(DEPARTMENT OF REVENUE)

New Delhi, the 31st August 2005

CORRIGENDUM

File No. mentioned in the first line of the Notification dated 17th August, 2005 may be read as A. 19013/4/2004-Ad. IA instead of A-19013/19.87-Ad. IA.

R. K. MALHOTRA, Under Secy.

New Delhi, the 6th October 2005

No. 112 : (F. No. A.12026/23/2004-Ad.I).—The President of India is pleased to appoint the following three officers as

Assistant Directors in the Directorate of Enforcement under the foreign Exchange Management Act (FEMA) on deputation basis on usual deputation terms in the pay scale of Rs. 10,000-15,200/- for a period of three years w.e.f. the date shown against each and until further orders :—

| | |
|----------------------------|------------------------|
| 1. Shri K.J. Rao | w.e.f. 30-05-2005 (FN) |
| 2. Shri Anil Kumar Singh | w.e.f. 20-05-2005 (AN) |
| 3. Shri Arvind Kumar Singh | w.e.f. 02-06-2005 (FN) |

PREETI PANT, Under Secy.

The 20th October 2005

No. 121 : (F. No. A.12026/23/2004-Ad. I).—In continuation of this Department's Notification No. dated 19.09.2002 (Issued from file No. 4/13/2002-Ad.IC), the President of India is pleased to extend the deputation tenure of Shri K. Parshivaiah, Assistant Director, Directorate of Enforcement, Bangalore w.e.f. 01.06.2005 to 31.05.2006 and until further orders.

PREETI PANT, Under Secy.

The 25th October 2005

No. 119 : (F. No. A.11013/2/2004-Ad.I).—The President of India is pleased to appoint the following, IRS (C&CE), Officers as Commissioners in CBEC, Department of Revenue, with effect from the date shown against their names and until further orders:—

| Sl. No. | Name | Posted as | w.e.f. |
|---------|-------------------------------------|--|-----------------|
| 1. | Shri P.S. Pruthi, IRS (C&CE : 78) | Commissioner, (Customs & Export Promotion) | 18-10-2005 (FN) |
| 2. | Shri N.K. Bhujabal, IRS (C&CE : 81) | Commissioner, (RI&I) | 14-10-2005 (FN) |
| 3. | Shri Vinay Chhabra, IRS (C&CE : 82) | Commissioner, (Coordination) | 06-10-2005 (FN) |
| 4. | Shri Rajeev Tandon, IRS (C&CE : 84) | Commissioner, (Hqrs.), (L&J) | 06-10-2005 (AN) |

PREETI PANT, Under Secy.

HEADQUARTERS ESTABLISHMENT

New Delhi, the 18th November 2005

S.O. No.5/2005 (F.No. A-15011/4/2002-CA).—The President is pleased to appoint Smt. Priya Sahu, an officer of Indian Revenue service (IT) and formerly posted as Deputy Commissioner, Income Tax, Cir 21(1), New Delhi, as Joint Commissioner in the office of Competent Authority [Smugglers and Foreign Exchange Manipulators (Forfeiture of Property) Act, 1976 and Narcotic Drugs and Psychotropic

Substances Act, 1985] New Delhi on deputation basis, with effect from the forenoon of 21st September, 2005 for a period of four years or until further orders, whichever is earlier.

2. The deputation will be governed by the terms and conditions contained in Department of Personnel and Training's Office Memorandum No. 2/29/91-Estt. (Pay.II) dated 05.01.1994 as amended from time to time.

S.G.P. VERGHESE, Under Secy.

(DEPARTMENT OF ECONOMIC AFFAIRS)

BANKING DIVISION

New Delhi, the 21st November 2005

No. A-19011/254/2005-Estt.—The President is pleased to appoint Shri P.P. Mitra, IES as Economic Adviser in the pay scale of Rs. 18,400-500-22,400/- in the Banking Division of Department of Economic Affairs, Ministry of Finance with effect from the forenoon of 16th November, 2005 and until further orders.

LOKHAN MALANDE, Under Secy.

MINISTRY OF COMMERCE AND INDUSTRY

(DEPARTMENT OF COMMERCE)

New Delhi, the 23rd November 2005

No. 12/15/93-HI&EP.—In exercise of the powers conferred by Section 3 of the Enemy Property Act, 1968, the President is pleased to appoint Shri Dinesh Singh, IRS (94) as Custodian of Enemy Property for India, Mumbai with effect from 14th November, 2005 (Forenoon) for a period of four years or until further orders, whichever event takes place earlier.

RAJ SINGH, Director

SUPPLY DIVISION

New Delhi, the 24th November 2005

No.A-12022/1/2001-Cadre.—The President is pleased to appoint Shri K.P. Nair, PPS (Ad-hoc) of this Department to the grade of Private Secretary (Designated as Principal Private Secretary) of CSSS in the pay scale of Rs.10,000-325-15,200/-against Select List Year 2000 w.e.f 23-06-2005.

2. The inclusion of Shri K.P. Nair of CSSS is in pursuance of DOP&T's O.M. No. 5/7/2003-CS.II dated the 23rd June, 2005 and is subject to the condition that the order of Seniority in the Private Secretary Grade of Central Secretariat Stenographers' Service will follow the serial order given, irrespective of actual dates of appointment to Private Secretary Grade (designated as Principal Private Secretary).

3. Shri Nair, PPS continues to be posted in DGS&D.

V.K. SHARMA, Under Secy.

DEPARTMENT OF INDUSTRIAL POLICY & PROMOTION

New Delhi, the 6th October 2005

No.F-23014/16/2005-E-III.—In terms of Section 5(1) of the Right to Information Act, 2005, Shri Y.P. Vashisht, Under Secretary is designated as Assistant Public Information Officer for all matters pertaining to Department of Industrial Policy & Promotion.

JAI PRAKASH, Under Secy.

No.F-23014/16/2005-E-III.—In terms of Section 5(1) of the Right to Information Act, 2005, Shri P. C.Meena, Director, Shri R.N. Pandey, Director, Shri R.S. Julaniya, Director, Shri S.P. Maurya, Director, Shri A.K. Jha, Director, Shri R.K. Manchanda, Director, Smt Uma Goel, Director, Shri S.K. Thade, Director, Shri Chanchal Kumar, Deputy Secretary, Shri P.L. Kain, Deputy Secretary, Shri T.C. James, Deputy Secretary, Shri Puran Chand, Deputy Secretary, Shri Ramjee Singh, Deputy Secretary and Smt. Kiran Kochhar, Deputy Secretary are designated as Central Public Information Officers for all matters pertaining to Department of Industrial Policy & Promotion

JAI PRAKASH, Under Secy.

No.F-23014/16/2005-E-III.—In terms of section 19(1) of the Right to Information Act, 2005, Shri Umesh Kumar, Joint Secretary and Shri N.N. Prasad, Joint Secretary are designated as Appellate Authorities for all matters pertaining to Department of Industrial Policy & Promotion.

JAI PRAKASH, Under Secy.

MINISTRY OF TEXTILES

New Delhi, the 21st November 2005

No. 22/2005 (A-12022/6/2000-Estt.—The President is pleased to appoint Dr. (Ms.) S. Rohini, a Senior Administrative Grade (SAG) level officer of the Indian Economic service S Economic Adviser in the Ministry of Textiles in the scale of pay of Rs. 18,400-500-22,400 with effect from the forenoon of 18th November, 2005.

CHANDER BHAN, Director.

MINISTRY OF PETROLEUM & NATURAL GAS

New Delhi, the 22nd August 2005

No.A-19011/10/2005-Estt.—Consequent on his inclusion in the Select List of Stenographer Grade 'A & B' (Merged) of CSSS under the Zoning Scheme for the Year 2001 vide Department of Personnel & Training's O.M. No.5/11/2002-CS.II dated 30th May, 2005 and having been relieved by the Ministry of Urban Development, the President is pleased to

appoint Shri Manjit Singh as Private Secretary Grade 'A & B' (Merged) of CSSS in the Ministry of Petroleum & Natural Gas in the pay scale of Rs. 6,500-200-10,500/- with effect from the forenoon of 1st August, 2005.

TAJBIR SINGH, Under Secy.

MINISTRY OF CHEMICALS & FERTILIZERS

(DEPARTMENT OF FERTILIZERS)

New Delhi, the 21st November 2005

No. A-19011/20/2005-HR.II.—Consequent upon her transfer and posting vide Controller General of Accounts Order No.A-22012/2005/Gr.A/1387-95 dated 17.11.2005 Ms. Sofia Dahiya, ICAS(94) has been appointed to the post of Director (Accounts) in the Department of Fertilizers w.e.f. the forenoon 17.11.2005 and until further orders.

JAI PREKASH, Under Secy.

MINISTRY OF CONSUMER AFFAIRS, FOOD AND PUBLIC DISTRIBUTION

(DEPARTMENT OF CONSUMER AFFAIRS)

New Delhi, the 23rd November 2005

No. A-12011/2/92-Estt.— In pursuance of DOP&T (ACC)'s Order No. 9/6/2003-EO (SM.I) 17th November, 2005, the President is pleased to extend the tenure of Dr. (Smt.) Jayashree Gupta, CSS, as Member, Forward Markets Commission, being operated in the Department of Consumer Affairs at New Delhi at the level of Joint Secretary in the scale of pay of Rs. 18,400-500-22,400/- for a further period of three months beyond 31.10.2005 or until further orders, whichever is earlier.

S.K NAYAK, Under Secy.

(DEPARTMENT OF FOOD & PUBLIC DISTRIBUTION)

New Delhi, the 10th November 2005

No. A-32013/1/2004-E.I.—The President is pleased to appoint Shri Harsh Malviya as Under Secretary (ad-hoc) in the Department of Food & Public Distribution in the pay scale of Rs.10,000-15,200/- w.e.f. the afternoon of 28th October, 2005.

MOHD. MONIRUZZAMAN, Under Secy.

MINISTRY OF SCIENCE AND TECHNOLOGY

(DEPARTMENT OF SCIENCE AND TECHNOLOGY)

New Delhi-110016, the 10th November 2005

No. A-32013/02/2005-Admn.I(A).— The Competent Authority is pleased to appoint Smt. Rajani Rawat, Junior Technical Assistant in Department of Science and Technology as Junior Analyst (Technical) on regular basis

in the scale of pay of Rs. 6,500-200-10,500 in the Department of Science and Technology with effect from 24.10.2005 and until further orders.

J.K. TRIKHA, Under Secy.

The 11th November 2005

No. A-12023/03/99-Admn.I(A).— In pursuance of DP&T's O.M. No. 5/22/2005- CS.I dated the September 14, 2005 and on inclusion in the Select List of Section Officers' Grade for the year 2003 against Examination Quota on the basis LDCE, 2003 held by UPSC, the President is pleased to appoint Shri Kuldeep Kumar, Assistant of the Cadre of Ministry of Science & Technology as Section Officer in the scale of Rs.6,500-200-10,500 in the CSS Cadre of Ministry of Science & Technology (Department of Science & Technology) w.e.f. 11.11.2005 and until further orders.

2. The appointment of Shri Kuldeep Kumar to the Grade of Section Officer of CSS shall be subject to the outcome of the Petition (C) No.13245-60/2005 filed by Shri Kailash Chander & Others Vs. Union of India & Others before the Hon' ble Delhi High Court.

J.K TRIKHA, Under Secy.

No. A-12023/5/98-Admn.I(A)— The competent authority has decided to extend the term of Shri B. Mani, Private Secretary as Staff Officer in the personal staff of Secretary, DST on purely ad-hoc basis in the scale of pay of Rs.10,000-325-15,200 in the Department of Science and Technology till 07.11.2005(AN).

J.K TRIKHA, Under Secy.

No. A-12023/02/2003-Admn.I(A)— The President is pleased to appoint Shri B. Mani, PS as Staff officer in the scale of pay of Rs. 10,000-325-15,200/- on deputation basis for a period of three years in the Department of Science and Technology with effect from the forenoon of 8th November, 2005 and until further orders.

J.K TRIKHA, Under Secy.

(DEPARTMENT OF SCIENTIFIC AND INDUSTRIAL RESEARCH)

New Delhi-110016, the 7th November 2005

No A-12014/01/2003-Admn.— The President is pleased to appoint Sh. Rajesh Kumar as Scientist 'C' in Department of Scientific Industrial Research in the scale of pay of Rs. 10,000-325-15,200 on purely deputation basis and on reverse of foreign service terms with effect from the forenoon of 14.10.2005 for a period of one year or till the post is filled on regular basis, whichever is earlier.

2. His terms and conditions of deputation to the Department of Scientific Industrial Research will be regulated in accordance with the FRSR Appendix, section (V) and Standard Terms of Deputation issued vide order of even number dated 07.10.2005

GURMIT SINGH, Under Secy.

(MINISTRY OF ENVIRONMENT & FORESTS)

New Delhi-110003, the 1st August 2005

No.12026/2/2003-IFS.I— The President is pleased to appoint Shri J.C. Kala, IFS (TN:68) as Director General of Forests & Special Secretary in this Ministry on deputation basis in the pay scale of Rs. 26,000/- (fixed) w.e.f. the date of his assumption of the charge of the post and upto 31.10.2006 i.e. the date of his Superannuation or until further orders, whichever is earlier.

A.K. JOHARI, Director (IFS).

New Delhi, the 3rd October 2005

No.17013/2/2003-IFS.II— In exercise of the provisions contained in Sub-Regulation (3) of Regulation 7 of the Indian Forest Service (Appointment by Promotion) Regulations, 1966, a meeting of the Selection Committee for preparation of Year-wise Select Lists for the year 2002, 2003 and 2004 was held on 13th June, 2005. Union Public Service Commission have now approved the year-wise Select Lists prepared in the said meeting containing the name of the following member of the State Forest Service of Assam towards filling up of promotion vacancies available in Assam segment of Assam-Meghalaya Joint Cadre of the IFS cadre as on 1st January, 2002, 2003 and 2004:—

Select List of 2002

| Sl. No. | Name of the Officer | Date of Birth |
|---------|----------------------|---------------|
| | S/Shri | |
| *0. | P.P.Changkakati | 01.02.1956 |
| 1. | Sanjib Kr. Bora | 01.01.1958 |
| 2. | Kailash Khargharia | 12.03.1952 |
| 3. | Md. Abdul Kuddus | 01.01.1953 |
| 4. | Rup Nath Brahma (ST) | 01.08.1955 |

*Included provisionally subject to his clearance in the disciplinary proceeding pending against him and grant of integrity certificate by the State Government.

Select List of 2003

| Sl. No. | Name of the Officer | Date of Birth |
|---------|---------------------|---------------|
| | S/Shri | |
| @ 0. | P. P. Changkakati | 01.02.1956 |
| 1. | Md. Debinuz Zaman | 14.01.1956 |

@Included provisionally subject to his clearance in the disciplinary proceeding pending against him and grant of integrity certificate by the State Government.

Select List of 2004

| Sl. No. | Name of the Officer | Date of Birth |
|---------|-----------------------|---------------|
| | S/Shri | |
| 1. | Mamat Kalita | 01.04.1950 |
| 2. | Khanindra Nath Barman | 01.01.1956 |

ASHOK KUMAR, Under Secy.

The 13th October 2005

No.17013/6/2005-IFS.II— In exercise of the provisions contained in Sub-Regulation (3) of Regulation 7 of the Indian Forest Service (Appointment by Promotion) Regulations, 1966, a meeting of the selection Committee for preparation of Select List for the year 2005 was held on 12th August, 2005. Union Public Service Commission have now approved the select List prepared in the said meeting containing the name of the following member of the State Forest Service of Himachal Pradesh towards filling up of promotion vacancy available in Himachal Pradesh Cadre of the IFS cadre as on 1st January, 2005:—

| Sl. No. | Name of the Officer | Date of Birth |
|---------|---------------------|---------------|
| | S/Shri | |
| 1. | Rajesh Sharma | 22.08.1966 |
| 2. | P D Dogra | 02.02.1955 |

ASHOK KUMAR, Under Secy.

The 7th November 2005

No.17013/6/2005-IFS.II— In exercise of the powers conferred by sub-rule (1) of Rule 8 of the Indian Forest Service (Recruitment) Rules, 1966, read with sub-regulation (1) of Regulation 9 of the Indian Forest Service (Appointment by Promotion) Regulations, 1966, the President is pleased to appoint with immediate effect, the following two officers of the State Forest Service of Himachal Pradesh, to the Indian Forest Service on the basis of the Select List for the year 2005 and to allocate them to the Himachal Pradesh Cadre of the Indian Forest Service under sub-rule (1) of Rule 5 of the Indian Forest Service (Cadre) Rules, 1966

| Sl. No. | Name of the Officer | Date of Birth |
|---------|---------------------|---------------|
| | S/Shri | |
| 1. | Rajesh Sharma | 22.08.1966 |
| 2. | P D Dogra | 02.02.1955 |

2. The promotion of these two officers is subject to the final outcome of the OA No. 502/2000 pending before the Hon' ble State Administrative Tribunal of Himachal Pradesh.

ASHOK KUMAR, Under Secy.

No. 17013/2/2003-IFS.II— In exercise of the powers conferred by sub-rule (1) of rule 8 of the Indian Forest Service (Recruitment) Rules, 1966, read with sub-regulation

(1) of regulation 9 of the Indian Forest Service (appointment by promotion) Regulation, 1966 the President is pleased to appoint with immediate effect the under mentioned seven officers of the State Forest Service of Assam, to the Indian Forest Service on the basis of the Select Lists for the years 2002, 2003 and 2004 and to allocate them to the Assam-Meghalaya Joint Cadre of the Indian Forest Service under sub-rule (1) of Rules 5 of the Indian Forest Service (Cadre) Rule, 1966:—

Select List of 2002

| Sl. No. | Name of the Officer | Date of Birth |
|---------|----------------------|---------------|
| | S/Shri | |
| 1. | Sanjib Kr. Bora | 01.01.1958 |
| 2. | Kailash Khargharia | 12.03.1952 |
| 3. | Md.Abdul Kuddus | 01.01.1953 |
| 4. | Rup Nath Brahma (ST) | 01.08.1955 |

Select List of 2003

| Sl. No. | Name of the Officer | Date of Birth |
|---------|------------------------|---------------|
| 1. | Shri Md. Debiruz Zaman | 14.01.1956 |

Select List of 2004

| Sl. No. | Name of the Officer | Date of Birth |
|---------|-----------------------|---------------|
| | S/Shri | |
| 1. | Mamat Kalita | 01.04.1950 |
| 2. | Khanindra Nath Barman | 01.01.1956 |

ASHOK KUMAR, Under Secy.

MINISTRY OF HEALTH & FAMILY WELFARE

(DEPTT. OF HEALTH)

New Delhi, the 23rd November 2005

No.A.12025/30/2002-CHS.III— On the recommendations of the Union Public Service Commission, the President is pleased to appoint Dr. Vumkhowneh Haokip an officer of the Specialist Grade II post of the public Health Specialist Sub-cadre of Central Health Service, on probation and to post him as public Health Specialist with effect from the forenoon of the 22.09.2005 until further orders.

RAM LAL, Under Secy.

New Delhi-110011, the 23rd November 2005

No.A.12025/19/2004-CHS.I— On the recommendations of the Union Public Service Commission, the President is pleased to appoint Dr. Shubhla Bansal to the Medical officer Grade of the Central Health Service in the scale of pay of Rs. 8,000-275-13,500/- in a temporary capacity with effect from

forenoon of the 21.06.2005 until further orders. Dr. Shubhla Bansal is posted as Medical Officer under Central Government Health Scheme, Meerut.

JAGDISH KUMAR, Under Secy.

No.A.12025/37/2004-CHS.I— On the recommendations of the Union Public Service Commission, the President is pleased to appoint Dr. Ravi Shankar Singh to the Medical Officer Grade of the Central Health Service in the scale of pay of Rs. 8,000-275-13,500/- in a temporary capacity with effect from forenoon of the 1st June, 2005 until further orders. Dr. Ravi Shankar is posted as Medical Officer under National Institute Communicable Diseases, Patna.

JAGDISH KUMAR, Under Secy.

The 24th November 2005

No.A.12025/149/2004-CHS.I— On the recommendations of the Union Public Service Commission, the President is pleased to appoint Dr. Pragya to the Medical Officer Grade of the Central Health Service in the scale of pay of Rs. 8,000-275-13,500/- in a temporary capacity with effect from forenoon of the 17.08.2005 until further orders Dr. Pragya is posted as Medical Officer under Government of National Capital Territory of Delhi.

JAGDISH KUMAR, Under Secy.

The 25th November 2005

No.A.12025/138/94-CHS.I— On the recommendations of the Union Public Service Commission, the President is pleased to appoint Dr. Saroj Kumar Pandey to the Medical Officer Grade of the Central Health Service in the scale of pay of Rs. 2,200-75-2,800-EB-100-4,000/- in a temporary capacity with effect from forenoon of the 21st September 1994 until further orders. Dr. Saroj Kumar Pandey is posted as Medical Officer under Assam Rifles.

JAGDISH KUMAR, Under Secy.

DIRECTORATE GENERAL OF HEALTH SERVICES

New Delhi, the 2nd November 2005

No.A-38012/2/2005-Admn.-I— Dr. S.P. Agarwal, DGHS retired from Government Service on attaining the age of superannuation with effect from 31.10.2005 (A.N).

MOHAN LAL, (ML) Dy. Director (Admn).

MINISTRY OF AGRICULTURE

(DEPARTMENT OF AGRICULTURE AND COOPERATION)

New Delhi, the 14th November 2005

No. 19011/438/2005-E V/II—The President is pleased to

extend the period of deputation of Shri Harish Chander in the post of Senior Analyst (Work Study) (Rs. 10,000-15,200/-) (GCS Group 'A' Gaztted) in the Department of Agriculture & Cooperation for one year w.e.f. 31.10.2005 to 30.10.2006 (AN), or until further orders whichever is earlier.

P. VIJAY KUMAR, Under Secy.

The 22nd November 2005

No. 12023/2/2005-E. II/E. V—The President is pleased to appoint Shri R. S. Kanade, Senior Administrative Grade Officer of IES, as Economic Adviser (Marketing) in the pay scale of Rs. 18,400—22,400/- in the Department of Agriculture & Cooperation w.e.f. the 9.11.2005 (AN) and until further orders.

P. VIJAY KUMAR, Under Secy.

No. 19011/419/2005-E V/E. II—The President is pleased to extend the ad-hoc appointment of Shri D. N. Thakur, a regular Deputy Director (Credit), in the Department of Agriculture & Cooperation, in the post of Director (Credit)

for a period of six months with effect from 28.10.2005 or till the post is filled on regular basis or until further orders, whichever is earlier.

2. The above appointment is purely on ad-hoc basis and will not confer any right to claim seniority in the grade of Director (Credit).

P. VIJAY KUMAR, Under Secy.

(DEPARTMENT OF ANIMAL HUSBANDRY DAIRYING AND FISHERIES)

New Delhi, the 18th November 2005

No. A. 12025/15/2003-Admn. I—The President is pleased to continue further the ad-hoc appointment of Dr. Rajneesh Kumar Gupta, Livestock Officer as Assistant Commissioner (Livestock Health) on the same terms and conditions as per Notification of even number dated 30.5.2005 for a period of 3 months beyond 14th October 2005 for a period of 3 months or till the regular incumbent join, whichever is earlier.

P. L. MEENA, Under Secy.

MINISTRY OF TOURISM

New Delhi, the 10th October 2005

No. A-18015/1/05-Admn.-I—

In terms of Section 5(2) of the Right to Information Act, 2005, the following officers of Ministry of Tourism are hereby designated as Central Public Information Officers in respect of the specific subject matters mentioned against their names:-

| Sl.No. | Name of the Officer | Designation | Telephone No. | Subject Matter |
|--------|---------------------|--|---------------|--|
| 1. | Shri Kuldeep Kumar | Dy. Secretary (Vigilance & Parliament) | 23710379 | All Service Matters, matters relating to Vigilance, Planning, IT & Events, General Administration, International Co-operation and Public Sector Undertaking. |
| 2. | Shri Vijay Kumar | Dy. Secretary (Domestic Offices & HRD) | 23014861 | All matters relating to Domestic Offices of the Ministry of Tourism, IT Offices abroad, matters relating to Human Resource Development Division and any other subject which has not been specifically allocated to other CPIOs.. |
| 3. | Shri M.M. Sadana | Dy. Director General (Travel & Trade) | 23019476 | Matters relating to Market Research, Hotel & Restaurant, Travel & Trade Division and Official Language. |

No. A- 18015/1/05-Admn.-I—

The 8th November 2005

In terms of Section 5(2) of the Right to Information Act 2005, the following officers of the Ministry of Tourism are hereby designated as Central Assistant Public Information Officer in respect of matters mentioned against each:

| S.No. | Name of the Officer | Designation | Address | Subject Matter |
|-------|--------------------------|------------------------|------------------|--|
| 1. | Shri A.R. Gopalakrishnan | Under Secretary | Transport Bhavan | Matters relating to Administration |
| 2. | Smt. Renu Jain | Under Secretary | Transport Bhavan | Matters relating to PSU under M/o Tourism |
| 3. | Shri Rajesh Talwar | Asst. Director General | Transport Bhavan | Matters relating to International Co-operation |
| 4. | Shri A. M. Basheer | Asst. Director General | Transport Bhavan | Matters relating to planning and co-ordination |
| 5. | Shri M.R. Pattanaik | Asst. Director General | Transport Bhavan | Matters relating to Adventure & Rural Tourism and J&K |
| 6. | Smt. S. Bhramara | Asst. Director General | Transport Bhavan | Matters relating to Information Technology and Publicity |
| 7. | Shri K. Sengupta | Asst. Director General | Transport Bhavan | Matters relating to Planning South West |
| 8. | Shri K. Rawal | Under Secretary | Transport Bhavan | Matters relating to Budget & Accounts and Integrated Finance |
| 9. | Shri N.K. Saini | Under Secretary | Transport Bhavan | Matters relating to Budget & Accounts and Integrated Finance |
| 10. | Shri Y.K. Jain | Asst. Director General | C-I Hutments | Matters relating to HRD Division |
| 11. | Smt. A. Arya | Asst. Director General | C-I Hutments | Matters relating to Hotels |
| 12. | Shri Shueb Samed | Asst. Director General | C-I Hutments | Matters relating to Travel Trade |
| 13. | Ms. Meenakshi Mehta | Asst. Director General | Transport Bhavan | Matters relating to Overseas Marketing and Hospitality |
| 14. | Shri S. Rawat | Under Secretary | C-I Hutments | Matters relating to North East Cell |
| 15. | Shri Jagdish Chander | Asst. Director General | C-I Hutments | Matters relating to Domestic Offices |
| 16. | Shri Kaushal Joshi | Deputy Director | C-I Hutments | Matters relating to Market Research |
| 17. | Shri Gajendra Kumar | Asst. Director General | Transport Bhavan | Matters relating to Planning North East |
| 18. | Smt. Roma Singh | Asst. Director General | Jaipur | Matters relating to Indiatourism Office, Jaipur |
| 19. | Shri T.W. Sudhakar | Asst. Director General | Bangalore | Matters relating to Indiatourism Office, Bangalore |
| 20. | Smt. R. Murlidharan | Asst. Director | Chennai | Matters relating to Indiatourism Office, Chennai |
| 21. | Smt. Neela Anil Lad | Asst. Director | Mumbai | Matters relating to Indiatourism Office, Mumbai |
| 22. | Shri R.K. Guha Roy | Asst. Director | Kolkatta | Matters relating to Indiatourism Office, Kolkatta |

Contd....2/-

| | | | | |
|-----|----------------------|----------------|-------------|--|
| 23. | Shri Sudhir Kumar | Asst. Director | Agra | Matters relating to Indiatourism Office, Agra |
| 24. | Shri S.K. Das | Asst. Director | Imphal | Matters relating to Indiatourism Office, Imphal |
| 25. | Shri S.S.Devburman | Asst. Director | Shillong | Matters relating to Indiatourism Office, Shillong |
| 26. | Shri Roshan Lal | Asst. Director | New Delhi | Matters relating to Indiatourism Office, New Delhi |
| 27. | Shri M.V. Babu | Asst. Director | Kochi | Matters relating to Indiatourism Office, Kochi |
| 28. | Shri J. Thombre | Asst. Director | Panaji, Goa | Matters relating to Indiatourism Office, Panaji, Goa |
| 29. | Shri G.C. Bhuyan | Asst. Director | Bhubaneswar | Matters relating to Indiatourism Office, Bhubaneswar |
| 30. | Shri Y. Neelakanthan | Asst. Director | Port Blair | Matters relating to Indiatourism Office, Port Blair |
| 31. | Ms. S. Tigga | Asst. Director | Hyderabad | Matters relating to Indiatourism Office, Hyderabad |

A. R. GOPALKRISHNAN, Under Secy.

No. A-18015/1/05-Admn.-I—

In supersession of this Ministry's Notification No.A-18015/1/05-Admn.-I dated the 10th October, 2005, the following officers of the Ministry of Tourism are designated as the Central Public Information Officers in respect of matters mentioned against each in terms of section 5(1) of the Right to Information Act 2005.

| S.No. | Name of the officer | Designation | Address | Subject Matter |
|-------|----------------------|------------------------|--|---|
| 1. | Shri Atul Chaturvedi | Director | Transport Bhavan, New Delhi-110001 | All service matters pertaining to Administration, ITDC, Planning and Co-ordination, International Co-operation, Adventure and Rural Tourism, J&K. |
| 2. | Smt. Leena Nandan | Director | Transport Bhavan, New Delhi-110001 | Publicity, Information Technology, Planning South, West & North & East. |
| 3. | Shri V.K. Bajaj | Joint Director General | C-1 Hutments New Delhi-110011 | Market Research |
| 4. | Shri Manoj Sethi | Financial Controller | Transport Bhavan, New Delhi-110001 | Matters relating to Accounts & Budget and Integrated Finance |
| 5. | Shri Kuldeep Kumar | Deputy Secretary | Transport Bhavan, New Delhi-110001 | Matters relating to Vigilance, NE Cell & Parliament |
| 6. | Shri Vijay Kumar | Deputy Secretary | C-1 Hutments New Delhi-110011 | Matters relating to Human Resource Development Division and Domestic Offices Division (only Tourist Promotion and Window Display) |
| 7. | Shri M.M. Sadana | Dy. Director General | C-1 Hutments New Delhi-110011 | Matters relating to Travel Trade |
| 8. | Shri M.N. Javed | Dy. Director General | C-1 Hutments New Delhi-110011 | Matters relating to Hotels. |
| 9. | Shri K.R. Arya | Dy. Director General | Transport Bhavan, New Delhi-110001 | Matters relating to Overseas Marketing and Hospitality |
| 10. | Smt. Madhu Goswami | Joint Director | C-1 Hutments New Delhi-110011 | Matter relating to Official Language |
| 11. | Smt. Alka Kuhl | Regional Director | Indiatourism "Embassy" 4, Shakespeare Sarani, Kolkata-700071 | Matters relating to Indiatourism Office of the Eastern Region. |
| 12. | Shri S.L. Khatriem | Regional Director | Indiatourism, G.L. Publication Complex, G.S. Road, Guwahati - 781006 | Matters relating to Indiatourism Offices of the North East Region. |

| | | | | |
|-----|-----------------|-------------------|---|--|
| 13. | Shri S.P. Singh | Regional Director | Indiatourism, 123, M. Karve Road, Opp. Church Gate, Mumbai-400020 | Matters relating to Indiatourism offices of the Western Region. |
| 14. | Shri D. Subhash | Regional Director | Indiatourism, 154, Anna Salai, Chennai-600002 | Matters relating to Indiatourism offices of the Southern Region |
| 15. | Shri K.L. Das | Regional Director | Indiatourism, 88, Janpath, New Delhi | Matters relating to Indiatourism offices of the Northern Region. |

2. Shri Rajeev Talwar, Additional Director General has been designated as the Appellate Authority for all matters pertaining to the Ministry of Tourism.

A. R. GOPALKRISHNAN, Under Secy.

MINISTRY OF RAILWAYS

(RAILWAY BOARD)

New Delhi, the 22nd November 2005

No.ERB-1/2005/3/1—

The following Assistants of Railway Board have been appointed as Section Officers of Railway Board Secretariat Service, on ad-hoc basis in the scale of Rs. 6500-10500/- (RSRP) with effect from the forenoon of date shown against each:-

| S. No. | Name (S/ Shri) | Date of appointment |
|--------|------------------------|---------------------|
| 1. | Subodh Kumar | 31.10.2005 |
| 2. | Mrs. Damayanti Parwani | 28.10.2005 |
| 3. | Mela Ram | 28.10.2005 |
| 4. | Lakshmi Narain | 28.10.2005 |
| 5. | Rajinder Singh | 28.10.2005 |
| 6. | G. S. Madan | 28.10.2005 |
| 7. | Ashok Kumar Jain | 31.10.2005 |
| 8. | Mukund Lal | 28.10.2005 |
| 9. | M. R. Sharma | 28.10.2005 |
| 10. | Subhash Chander-II | 31.10.2005 |
| 11. | Mrs. Indu Chander | 28.10.2005 |
| 12. | R. K. Sharma | 28.10.2005 |
| 13. | Mrs. Nisha Tahiliani | 28.10.2005 |
| 14. | B. S. Gosain | 28.10.2005 |
| 15. | Mrs. Chanda Pasbola | 28.10.2005 |
| 16. | Om Prakash-V | 31.10.2005 |
| 17. | Mrs. Madhu Mallik | 28.10.2005 |
| 18. | Mrs. Lata Thawani | 28.10.2005 |
| 19. | Mrs. C. Jyoti Prasad | 28.10.2005 |

| | | |
|-----|------------------------|------------|
| 20. | H.D. Lohani | 28.10.2005 |
| 21. | P. K. Chakraborty | 28.10.2005 |
| 22. | S. C. Bhardwaj | 28.10.2005 |
| 23. | Surat Singh | 28.10.2005 |
| 24. | Mrs. Vinod Bala Sharma | 28.10.2005 |
| 25. | Brahma Bhatnagar | 28.10.2005 |
| 26. | A. K. Kshirasagar | 28.10.2005 |
| 27. | T. K. Dey | 28.10.2005 |
| 28. | P. L. Sharma | 28.10.2005 |
| 29. | R. K. Khas | 28.10.2005 |
| 30. | M. L. Chowdhary | 28.10.2005 |
| 31. | Mrs. Anita Bhatt | 28.10.2005 |
| 32. | Paley Ram | 28.10.2005 |
| 33. | Sunil Prabhat | 31.10.2005 |
| 34. | Mrs. H. B. Dua | 28.10.2005 |
| 35. | Dev Raj | 28.10.2005 |
| 36. | Mrs. Neelam Bedi | 31.10.2005 |
| 37. | Shankar Lal Razak | 28.10.2005 |
| 38. | Niranjan | 28.10.2005 |
| 39. | Shiv Ram | 28.10.2005 |
| 40. | Ravinder Kumari | 28.10.2005 |
| 41. | Paul Barua | 28.10.2005 |
| 42. | Mrs. Nutan Minj | 28.10.2005 |
| 43. | A. K. Prasad | 28.10.2005 |

M. K. AGARWAL, Secy. (Railway Board)

New Delhi, the 24th November 2005

No. ERB-I/2005/2/66—Shri A. B. Siddique, ASC/CCB,

Shri A.B. Siddique, ASC/CCB, Railway Board, is appointed as Deputy Director/CCB, Railway Board, in Grade Rs. 10000-15200/-, with effect from the forenoon of 25-10-2005.

M.K. Agarwal
Secretary Railway Board